

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023—वैशाख 15, शक 1945

---

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकारण, भोपाल  
प्ररूप सोलह

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि भोपाल विकास, भोपाल नगर विकास स्कीम क्रमांक—TDS-213-BHO-2023 अर्थात् ग्राम भैरोपुर, बागली एवं मिसरोद 30 मीटर मार्ग बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :—

| Scheme Name:- भैरोपुर मिसरोद बागली 30 मीटर मार्ग<br>ग्राम भैरोपुर तहसील कोलार |  | Scheme No:- TDS 213/BHO/2023 |                        |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| क्रमांक   | भू स्वामी का नाम                           | खसरा नम्बर                   | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
| 1   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 215/1                        | 0.080                  | 0.080                        |
| 2   | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 215/2/1                      | 0.440                  | 0.440                        |
| 3   | मोहनलाल गंगवानी पुत्र कवकूलाल गंगवानी      | 215/3                        | 0.010                  | 0.010                        |
| 4   | मोहनलाल गंगवानी पुत्र कवकूलाल गंगवानी      | 215/4/1                      | 0.275                  | 0.275                        |
| 5   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 216                          | 0.250                  | 0.250                        |
| 6   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 217/1                        | 0.140                  | 0.140                        |
| 7   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 217/2                        | 0.310                  | 0.310                        |
| 8   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 217/3/1                      | 0.090                  | 0.090                        |
| 9   | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 218/1                        | 0.120                  | 0.120                        |
| 10  | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 222/1                        | 0.070                  | 0.070                        |
| 11  | गोरी गंगवानी पल्ली राजेश गंगवानी           | 222/2/1                      | 0.250                  | 0.250                        |
| 12  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 217/3/2                      | 0.600                  | 0.600                        |
| 13  | मोहनलाल गंगवानी पिता कवकूलाल गंगवानी       | 218/2                        | 0.120                  | 0.120                        |
| 14  | मोहनलाल गंगवानी पिता कवकूलाल गंगवानी       | 219                          | 0.050                  | 0.050                        |
| 15  | मोहनलाल गंगवानी पिता कवकूलाल गंगवानी       | 220                          | 0.120                  | 0.120                        |
| 16  | मोहनलाल गंगवानी पिता कवकूलाल गंगवानी       | 222/3                        | 0.060                  | 0.060                        |
| 17  | मोहनलाल गंगवानी पिता कवकूलाल गंगवानी       | 221/1/1                      | 0.140                  | 0.140                        |
| 18  | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 221/2/1                      | 0.500                  | 0.500                        |
| 19  | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 221/3/1                      | 0.145                  | 0.145                        |
| 20  | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 222/4                        | 0.790                  | 0.790                        |
| 21  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 222/2/2                      | 0.380                  | 0.380                        |
| 22  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 222/5                        | 0.090                  | 0.090                        |
| 23  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 223/1                        | 0.560                  | 0.560                        |
| 24  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 223/2                        | 0.090                  | 0.090                        |
| 25  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 224/1                        | 0.130                  | 0.130                        |
| 26  | श्रीमती बैजेन्तीमाला पल्ली मोहनलाल गंगवानी | 224/2                        | 0.090                  | 0.090                        |
| 27  | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 225/1                        | 0.242                  | 0.242                        |
| 28  | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 225/2                        | 0.177                  | 0.177                        |
| 29  | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 226/1                        | 0.210                  | 0.210                        |
| 30  | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 226/2                        | 0.280                  | 0.280                        |
| 31  | सतीश अग्रवाल                               | 227/1/1                      | 0.167                  | 0.167                        |
| 32  | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 227/2/1                      | 0.203                  | 0.203                        |
| 33  | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा      | 228                          | 0.480                  | 0.480                        |
| 34  | जिनेन्द्र कुमार सामधिया                    | 233                          | 0.470                  | 0.470                        |
| 35  | जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा     | 234                          | 0.320                  | 0.320                        |
| 36  | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा      | 237                          | 0.410                  | 0.410                        |
| 37  | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा      | 238                          | 0.050                  | 0.050                        |
| 38  | संतोष कुमार पिता जे पी चौबे                | 232                          | 0.170                  | 0.170                        |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम   | खसरा नम्बर       | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------|--|------------------|------------------------|------------------------------|
| 39      | शिव कुमार समाधिया  | 235              | 0.150                  | 0.150                        |
| 40      | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल  | 285/1/1          | 0.023                  | 0.023                        |
| 41      | जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र वाबूलाल शर्मा   | 285/2/1          | 0.027                  | 0.027                        |
| 42      | मेसर्स एस.एस. एसोसिएट्स भागीदार सविता जैन  | 286/1            | 0.060                  | 0.060                        |
| 43      | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल   | 368              | 0.500                  | 0.100                        |
| 44      | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल   | 369              | 0.410                  | 0.410                        |
| 45      | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल   | 370              | 0.220                  | 0.176                        |
| 46      | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल   | 400              | 2.520                  | 2.520                        |
| 47      | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल   | 409              | 1.490                  | 1.490                        |
| 48      | अर्जूनसिंह पुत्र करनसिंह   | 371              | 0.490                  | 0.196                        |
| 49      | अर्जूनसिंह पुत्र करनसिंह   | 372              | 0.360                  | 0.036                        |
| 50      | अरविन्द कुमार पुत्र गुलाबचन्द्र  | 381/1/1          | 0.020                  |                              |
| 51      | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे        | 381/1/2          | 0.640                  |                              |
| 52      | आई सेक्ट भोपाल द्वारा सिद्धार्थ चतुर्वेदी पिता श्री संतोष चौबे                           | 381/2            | 0.840                  |                              |
|         |  | बटान उपलब्ध नहीं | कुल रकबा               | 1.500 0.600                  |
| 53      | आईसेक्ट लिलो द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी  | 229              | 0.110                  | 0.110                        |
| 54      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 231              | 0.170                  | 0.170                        |
| 55      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 236              | 0.040                  | 0.040                        |
| 56      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 239              | 0.160                  | 0.160                        |
| 57      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 240              | 0.100                  | 0.100                        |
| 58      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 241              | 0.100                  | 0.100                        |
| 59      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 242              | 0.200                  | 0.200                        |
| 60      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 243              | 0.220                  | 0.220                        |
| 61      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 244              | 0.170                  | 0.170                        |
| 62      | जमना प्रसाद पिता मिठूलाल   | 246/1/1          | 0.500                  |                              |
| 63      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 246/1/2          | 0.160                  |                              |
| 64      | श्रीमति प्रेम बाई पल्ली अजय सिंह   | 246/2/1          | 0.670                  |                              |
| 65      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 246/2/2          | 0.040                  |                              |
|         |  | बटान उपलब्ध नहीं | कुल रकबा               | 1.370 0.400                  |
| 66      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 254              | 0.090                  | 0.090                        |
| 67      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 255              | 0.080                  | 0.080                        |
| 68      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 256              | 0.080                  | 0.080                        |
| 69      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 257              | 0.110                  | 0.110                        |
| 70      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 258              | 0.110                  | 0.110                        |
| 71      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 259              | 0.200                  |                              |
| 72      | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई स.  | 287/1            | 0.080                  |                              |
| 73      | जयकिशन पिता गौरीशंकरडागा   | 382              | 0.360                  | 0.360                        |
| 74      | जयकिशन पिता गौरीशंकरडागा   | 389/3            | 0.330                  | 0.330                        |
| 75      | जयकिशन पिता गौरीशंकरडागा   | 395/1            | 0.290                  | 0.290                        |
| 76      | जयकिशन पिता गौरीशंकरडागा   | 396              | 0.300                  | 0.300                        |
| 77      | ललित कुमार पुत्र गौरीशंकर डागा बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा शशि पल्ली ललित कुमार डागा | 383/1            | 0.424                  | 0.424                        |
| 78      | ललित कुमार पुत्र गौरीशंकर डागा बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा शशि पल्ली ललित कुमार डागा | 388/1            | 1.220                  | 1.220                        |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में समिलित क्षेत्रफल |
|---------|---|------------|------------------------|----------------------------|
| 79      | ललित कुमार पुत्र गौरीशंकर डागा बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा शशि पत्नी ललित कुमार डागा                                      | 394/1      | 0.070                  | <b>0.070</b>               |
| 80      | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम पी नगर भोपालद्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल                        | 383/2      | 0.610                  | <b>0.610</b>               |
| 81      | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम पी नगर भोपालद्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल                        | 388/2      | 1.220                  | <b>1.220</b>               |
| 82      | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम पी नगर भोपालद्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल                        | 394/2      | 0.070                  | <b>0.070</b>               |
| 83      | आई सेक्टर द्वारा अध्यक्षसंतोष कुमार चौबे आ जगन्नाथ चौबे   | 383/3      | 0.186                  | <b>0.186</b>               |
| 84      | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ के गंगवानी  | 384/1      | 0.180                  | <b>0.180</b>               |
| 85      | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ के गंगवानी  | 384/3      | 1.176                  | <b>1.176</b>               |
| 86      | काशीबाई पत्नी सूरजकरण माहेश्वरी   | 384/2      | 0.664                  | <b>0.664</b>               |
| 87      | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ के गंगवानी  | 385        | 0.830                  | <b>0.830</b>               |
| 88      | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ के गंगवानी  | 386        | 0.300                  | <b>0.300</b>               |
| 89      | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ के गंगवानी  | 387        | 0.750                  | <b>0.750</b>               |
| 90      | विनय डागा पुत्र जय किशन डागा  | 389/1      | 0.410                  | <b>0.410</b>               |
| 91      | श्रीमती प्रीति डागा पत्नी विनय डागा   | 389/2      | 0.410                  | <b>0.410</b>               |
| 92      | श्रीमती सरोज डागा पत्नी जयकिशन डागा   | 389/4      | 1.210                  | <b>1.210</b>               |
| 93      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 390        | 3.420                  | <b>2.736</b>               |
| 94      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 391        | 2.540                  | <b>1.778</b>               |
| 95      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 392        | 1.230                  | <b>0.861</b>               |
| 96      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 397        | 0.590                  | <b>0.590</b>               |
| 97      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 398        | 1.130                  | <b>1.130</b>               |
| 98      | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता | 399        | 2.610                  | <b>2.610</b>               |
| 99      | साक्षी अगरवाल उर्फनम्रता पुत्री जयकिशन डागा पत्नी आशुतोष  | 395/2      | 0.410                  | <b>0.410</b>               |
| 100     | बलवीर सिंह पिता मुंशीलाल  | 401        | 0.600                  | <b>0.360</b>               |
| 101     | बलवीर सिंह पिता मुंशीलाल  | 403        | 1.910                  | <b>0.382</b>               |
| 102     | बाबूलाल पिता उमरावासिंह   | 404        | 1.190                  | <b>1.190</b>               |

| क्रमांक                        | भू स्वामी का नाम   | खसरा नम्बर             | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 103                            | बाबूलाल पिता उमरावसिंह   | 405                    | 0.960                  | 0.960                        |
| 104                            | बाबूलाल पिता उमरावसिंह   | 406                    | 0.940                  | 0.752                        |
|                                |  | कुल रकबा               | 51.629                 | 43.146                       |
| <b>शासकीय भूमि</b>             |  |                        |                        |                              |
| 1                              | मध्यप्रदेश शासन नाला   | 349                    | 3.180                  | 1.060                        |
| 2                              | मध्यप्रदेश शासन नहर  | 393                    | 5.290                  | 1.587                        |
| 3                              | मध्यप्रदेश शासन नदी  | 407                    | 0.520                  | 0.104                        |
| 4                              | शासकीय रास्ता  | 284                    | 0.080                  | 0.080                        |
| 5                              | लोक निर्माण विभाग म0प्र0 शासन  | 227/1/2                | 0.050                  |                              |
| 6                              | लोक निर्माण विभाग म0प्र0 शासन  | 285/1/2                | 0.050                  |                              |
| 7                              | लोक निर्माण विभाग म0प्र0 शासन  | 285/2/2                | 0.100                  |                              |
| 8                              | लोक निर्माण विभाग म0प्र0 शासन  | 286/2                  | 0.040                  |                              |
| 9                              | लोक निर्माण विभाग म0प्र0 शासन  | 287/2                  | 0.040                  |                              |
|                                | मध्यप्रदेश शासन कुल रकबा   |                        | 5.810                  | 1.691                        |
|                                |  | कुल रकबा ग्राम वैरोपुर | 57.439                 | 44.837                       |
| <b>ग्राम बागली तहसील कोलार</b> |  |                        |                        |                              |
| 1                              | शिवनारायण आत्मज भवानी प्रसाद   | 56/1/1                 | 0.512                  | 0.512                        |
| 2                              | मैसर्स सर्हे रियल्टी भोपाल द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं भागीदारगण प्रीतम चोटरानी आत्मज स्व. जी डी चोटरानी, रमेश पाटीदार आत्मज स्व. सेवाराम पाटीदार | 56/1/2                 | 0.809                  | 0.809                        |
| 3                              | शिवनारायण आत्मज भवानी प्रसाद   | 56/3                   | 0.020                  | 0.020                        |
| 4                              | शिवनारायण आत्मज भवानी प्रसाद   | 58                     | 1.840                  | 1.840                        |
| 5                              | नन्हुलाल आत्मज भवानी प्रसाद  | 61                     | 4.970                  | 4.970                        |
| 6                              | श्यामलाल पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण   | 63/1/1                 | 1.100                  | 1.100                        |
| 7                              | श्यामलाल पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण   | 64/1                   | 2.430                  | 2.430                        |
| 8                              | नन्हुलाल आत्मज भवानी प्रसाद  | 63/1/2                 | 0.080                  | 0.080                        |
| 9                              | रामानंद आ.लक्ष्मीनारायण  | 63/2                   | 0.890                  | 0.890                        |
| 10                             | रामानंद आ.लक्ष्मीनारायण  | 64/2                   | 1.710                  | 1.710                        |
| 11                             | रामकुमार आ. कैलाशनारायण  | 63/3                   | 0.140                  | 0.140                        |
| 12                             | रामकुमार आ. कैलाशनारायण  | 65                     | 1.020                  | 1.020                        |
| 13                             | रामकुमार आ. कैलाशनारायण  | 66                     | 0.640                  | 0.640                        |
| 14                             | विद्याबाई पत्नी नर्बदा प्रसाद साहू   | 67                     | 0.480                  | 0.480                        |
| 15                             | नर्बदाप्रसाद पुत्र हेमराज  | 68                     | 0.950                  | 0.950                        |
| 16                             | नर्बदाप्रसाद पुत्र हेमराज  | 69                     | 1.030                  | 1.030                        |
| 17                             | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू  | 70/1                   | 0.250                  | 0.250                        |
| 18                             | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू  | 71/1                   | 1.190                  | 1.190                        |
| 19                             | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू  | 73/1                   | 0.100                  | 0.100                        |
| 20                             | मोहन आ. जगन्नाथ साहू   | 70/2                   | 0.250                  | 0.250                        |
| 21                             | मोहन आ. जगन्नाथ साहू   | 71/2                   | 1.190                  | 1.190                        |
| 22                             | मोहन आ. जगन्नाथ साहू   | 73/2                   | 0.110                  | 0.110                        |
| 23                             | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार  | 74/1                   | 0.770                  | 0.770                        |
| 24                             | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार  | 75/1                   | 0.060                  | 0.060                        |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------|---|------------|------------------------|------------------------------|
| 25      | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार   | 76/1       | 0.080                  | <b>0.080</b>                 |
| 26      | भैया लाल आ. प्रहलाद   | 74/2       | 0.520                  | <b>0.156</b>                 |
| 27      | भैया लाल आ. प्रहलाद   | 75/2       | 0.080                  | <b>0.080</b>                 |
| 28      | भैया लाल आ. प्रहलाद   | 76/2       | 1.150                  | <b>0.460</b>                 |
| 29      | मीनू पत्नि भूपिन्दरसिंह   | 74/3       | 0.500                  | <b>0.500</b>                 |
| 30      | महेश पाटीदार पुत्र हरीप्रसाद पाटीदार  | 78/1       | 0.770                  |                              |
| 31      | श्रीमती मधु जैन पत्नी कमल कुमार जैन कमल कुमार जैन पुत्र शीतल प्रसाद   | 78/2       | 2.430                  |                              |
| 32      | श्रीमती कमला पाटीदार पत्नी महेश पाटीदार   | 78/3       | 2.840                  |                              |
|         | बटान उपलब्ध नहीं  |            | कुल रक्खा              | 6.040 <b>0.150</b>           |
| 33      | ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आ.राजमणि सिंह   | 82         | 0.480                  | <b>0.150</b>                 |
| 34      | ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आ.राजमणि सिंह   | 83         | 0.240                  | <b>0.100</b>                 |
| 35      | रामानंद पुत्र शिं नारायण  | 84         | 2.310                  | <b>2.310</b>                 |
| 36      | लीलाबाई पत्नी देवबक्स व श्रीमती हेमलता पत्नी राजकुमार   | 85         | 0.060                  | <b>0.030</b>                 |
| 37      | लीलाबाई पत्नी देवबक्स व श्रीमती हेमलता पत्नी राजकुमार   | 86/2       | 1.520                  | <b>0.410</b>                 |
| 38      | मेसर्स नोवेक्स ओयरसीज प्रा लिमिटेड पंजीयत कंपनी जिसका कार्यालय ग्रेटर कैलाश 2 नईदिल्ली द्वारा रमेशचन्द सुराना पुत्र वाय एम सुराना | 88/3/1     | 2.000                  | <b>1.550</b>                 |
| 39      | मोहित पाटीदार पुत्र श्यामलाल पाटीदार  | 146        | 3.160                  | <b>3.160</b>                 |
| 40      | रामनारायण आत्मज देवबर्ख्स   | 158        | 0.100                  | <b>0.100</b>                 |
| 41      | देवीराम आत्मज देवबर्ख्स   | 159/1/1    | 1.372                  | <b>1.372</b>                 |
| 42      | रामनारायण आत्मज देवबर्ख्स   | 159/1/2    | 0.048                  | <b>0.048</b>                 |
| 43      | रामनारायण आत्मज देवबर्ख्स   | 159/2      | 1.680                  | <b>1.680</b>                 |
| 44      | राधेश्याम पिता जगन्नाथ साहू   | 178/1      | 1.860                  | <b>1.860</b>                 |
| 45      | मोहन पिता जगन्नाथ साहू  | 178/2      | 1.830                  | <b>1.830</b>                 |
| 46      | देवीराम आत्मज देवबर्ख्स   | 179        | 0.370                  | <b>0.370</b>                 |
| 47      | विनोद पाटीदार पुत्र रामकिशन पाटीदार   | 180/1      | 0.380                  | <b>0.380</b>                 |
| 48      | विष्णु पाटीदार आत्मज जगन्नाथ पाटीदार  | 180/2      | 1.020                  | <b>1.020</b>                 |
| 49      | विनोद पाटीदार पुत्र रामकिशन पाटीदार   | 181/1      | 0.020                  | <b>0.020</b>                 |
| 50      | विष्णु पाटीदार आत्मज जगन्नाथ पाटीदार  | 181/2      | 0.870                  | <b>0.870</b>                 |
| 51      | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल   | 182        | 0.010                  | <b>0.010</b>                 |
| 52      | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल   | 183        | 1.100                  | <b>1.100</b>                 |
| 53      | मोहित पाटीदार पुत्र श्यामलाल पाटीदार  | 187/2      | 0.180                  | <b>0.180</b>                 |
| 54      | खालिद मो.खां आत्मज शाहिद सईद मो.खां.  | 147        | 2.850                  | <b>2.850</b>                 |
| 55      | खालिद मो.खां आत्मज शाहिद सईद मो.खां.  | 148        | 1.430                  | <b>1.430</b>                 |
| 56      | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल अरुणलाल पिता चन्द्रशेखर   | 156        | 0.100                  | <b>0.100</b>                 |
| 57      | विष्णु पाटीदार आत्मज जगन्नाथ पाटीदार  | 184        | 0.200                  | <b>0.200</b>                 |
| 58      | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल अरुणलाल पिता चन्द्रशेखर   | 185        | 2.850                  | <b>2.850</b>                 |
| 59      | रामानंद पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण   | 187/1      | 1.710                  | <b>1.710</b>                 |
| 60      | श्रीमती पुष्पा साहू पत्नी मोहनलाल साहू.   | 188        | 0.530                  | <b>0.530</b>                 |
| 61      | धनश्याम पाटीदार आ.मदनलाल पाटीदार  | 190        | 1.890                  | <b>1.890</b>                 |
| 62      | रामकरण आत्मज भोजराज   | 192        | 1.140                  | <b>0.110</b>                 |
| 63      | गंगाप्रसाद आ. राजाराम   | 193/1      | 2.800                  | <b>0.060</b>                 |
| 64      | मेसर्स जेडीएन इंफा एड डेवलपर्स द्वारा ओमप्रकाश पाटीदार  | 193/2      | 2.500                  | <b>2.500</b>                 |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम   | खसरा नम्बर   | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में समिलित क्षेत्रफल |
|---------|--|--------------|------------------------|----------------------------|
| 65      | मेसर्स जेडीएन इंफा एड डेवलर्पर्स द्वारा ओमप्रकाश पाटीदार         | 194          | 0.310                  | 0.310                      |
| 66      | प्लेटीनम रियल्टी द्वारा श्री श्रेयस चौधरी                        | 195/2, 195/3 | 1.719                  | 1.719                      |
| 67      | कैलास नारायण आग्राम किशन   | 203          | 1.650                  | 0.100                      |
| 68      | लक्ष्मीनारायण कैलाशनारायण पुत्रगण रामकिशन लीलाबाई पुत्री रामकिशन | 205          | 0.140                  | 0.140                      |
| 69      | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 206/1        | 1.650                  | 1.485                      |
| 70      | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 206/2        | 1.660                  | 1.494                      |
| 71      | रामानन्द पिता शिवनारायण पाटीदार                                  | 206/3        | 0.470                  | 0.423                      |
| 72      | नन्हूलाल आत्मज भवानी प्रसाद                                      | 207/1        | 2.550                  | 2.550                      |
| 73      | नन्हूलाल आत्मज भवानी प्रसाद                                      | 207/2        | 1.620                  | 1.620                      |
| 74      | राम कुंवर बाई नन्हूलाल   | 209          | 0.442                  | 0.287                      |
| 75      | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 212/1        | 0.310                  | 0.093                      |
| 76      | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 212/2        | 0.090                  | 0.027                      |
| 77      | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 213/1        | 0.190                  | 0.095                      |
| 78      | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 213/2        | 0.400                  | 0.200                      |
| 79      | कैलास नारायण आत्मज राम किशन                                      | 214          | 4.130                  | 0.120                      |
|         |  | कुल रकबा     | 86.852                 | 67.410                     |

**शासकीय**

|    |                                  |      |        |        |
|----|----------------------------------|------|--------|--------|
| 1  | मध्यप्रदेश शासन                  | 56/2 | 0.180  | 0.180  |
| 2  | मध्यप्रदेश शासन                  | 57   | 0.230  | 0.230  |
| 3  | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 59   | 0.150  | 0.150  |
| 4  | मध्यप्रदेश शासन                  | 60   | 0.040  | 0.040  |
| 5  | मध्यप्रदेश शासन                  | 62   | 0.020  | 0.020  |
| 6  | मध्यप्रदेश शासन नदी              | 72/1 | 1.080  | 1.080  |
| 7  | मध्यप्रदेश शासन                  | 186  | 0.970  | 0.970  |
| 8  | मध्यप्रदेश शासन                  | 191  | 2.190  | 1.990  |
| 9  | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 91   | 0.520  | 0.260  |
| 10 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 204  | 0.860  | 0.860  |
| 11 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 142  | 0.110  | 0.110  |
| 12 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 143  | 0.100  | 0.100  |
| 13 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 144  | 0.270  | 0.270  |
| 14 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 145  | 0.310  | 0.310  |
| 15 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 196  | 0.170  | 0.068  |
| 16 | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 208  | 0.400  | 0.360  |
| 17 | मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग नहर | 157  | 1.200  | 1.200  |
|    | मध्यप्रदेश शासन कुल रकबा         |      | 8.800  | 8.198  |
|    | कुल रकबा ग्राम बागली             |      | 95.652 | 75.608 |

**ग्राम मिसरोद तहसील कोलार**

|   |  |             |       |       |
|---|--|-------------|-------|-------|
| 1 | गंगाप्रसाद अवधनारायण चतुरनारायण आ तुलसीराम | 230/1       | 2.946 | 2.946 |
| 2 | शिवप्रसाद पिता भगवान सिंह                  | 230/2       | 3.715 | 3.715 |
| 3 | गंगाप्रसाद अवधनारायण चतुरनारायण आ तुलसीराम | 231         | 4.492 | 4.492 |
| 4 | महेन्द्र पिता कैलासनारायण                  | 233/235/1/3 | 0.761 | 0.761 |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर    | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | रकीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------|---|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 5       | रामनारायण आ.जीतमल   | 234           | 2.372                  | <b>2.372</b>                |
| 6       | महेन्द्र पिता कैलासनारायण   | 235/2/2       | 0.243                  | <b>0.243</b>                |
| 7       | शिवप्रसाद पिता भगवान सिंह   | 233/235/1/1/1 | 0.540                  | <b>0.540</b>                |
| 8       | महावीरप्रसाद पुत्र भगवानसिंह  | 233/235/1/1/2 | 0.540                  | <b>0.540</b>                |
| 9       | रामस्वरूप पुत्र भगवान सिंह  | 233/235/1/1/3 | 0.539                  | <b>0.539</b>                |
| 10      | रामनारायण आ.जीतमल   | 233/235/1/2   | 1.029                  | <b>1.029</b>                |
| 11      | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 233/235/1/4   | 0.186                  | <b>0.186</b>                |
| 12      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 233/235/1/5   | 0.186                  | <b>0.186</b>                |
| 13      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 235/3/2       | 0.202                  | <b>0.202</b>                |
| 14      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 237           | 0.295                  | <b>0.295</b>                |
| 15      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 238/2         | 1.456                  | <b>1.456</b>                |
| 16      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 240/3         | 1.153                  | <b>1.153</b>                |
| 17      | महेन्द्र पिता कैलासनारायण   | 242/1/1       | 0.719                  | <b>0.719</b>                |
| 18      | महेन्द्र पिता कैलासनारायण   | 242/2         | 0.101                  | <b>0.101</b>                |
| 19      | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 242/1/2       | 3.089                  | <b>3.089</b>                |
| 20      | जगदीश प्रसाद पुत्र कैलाश नारायण   | 243/1(s)      | 0.853                  | <b>0.853</b>                |
| 21      | बद्री प्रसाद पुत्र प्रेम नारायण   | 243/2(s)      | 0.206                  | <b>0.206</b>                |
| 22      | जगदीश प्रसाद पिता कैलाशनारायण   | 244/1/1       | 1.002                  | <b>1.002</b>                |
| 23      | बद्रीप्रसाद पिता प्रेमनारायण  | 244/2         | 0.567                  | <b>0.567</b>                |
| 24      | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 244/3         | 0.251                  | <b>0.251</b>                |
| 25      | मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल  | 254           | 1.028                  | <b>1.028</b>                |
| 26      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 235/3/1       | 0.048                  | <b>0.048</b>                |
| 27      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 238/1         | 0.494                  | <b>0.494</b>                |
| 28      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 240/1         | 0.607                  | <b>0.607</b>                |
| 29      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 240/2         | 0.077                  | <b>0.077</b>                |
| 30      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 253/1         | 1.704                  | <b>1.704</b>                |
| 31      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 240/4         | 0.040                  | <b>0.040</b>                |
| 32      | प्रेमनाथ आ.सूरजमल   | 246/247/1/1   | 0.137                  | <b>0.137</b>                |
| 33      | पियूसरेना आ.हिरालाल   | 246/247/1/2   | 0.137                  | <b>0.137</b>                |
| 34      | सोख आ.हिरालाल   | 246/247/1/3   | 0.136                  | <b>0.136</b>                |
| 35      | श्रीमति प्रभावती पुत्री जीवनमुक्त कोल   | 246/247/1/4   | 0.136                  | <b>0.136</b>                |
| 36      | रत्ना रेना पिता शिवजी कोल   | 246/247/1/5   | 0.148                  | <b>0.148</b>                |
| 37      | मनोरमा ठाकरे पत्नी विश्वनाथ तुलसीराम ठाकरे<br>सुभम ठाकरे पुत्र विश्वनाथ तुलसीराम ठाकरे<br>सोमेन्द्र बनर्जी पुत्र शिवप्रसाद बनर्जी | 246/247/2     | 0.700                  | <b>0.700</b>                |
| 38      | श्रीमति श्यामपाटीदार पत्नि भागीरथ   | 246/247/3     | 0.692                  | <b>0.692</b>                |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर  | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------|---|-------------|------------------------|------------------------------|
| 39      | श्रीमति श्यामपाटीदार पत्नि भागीरथ   | 246/247/4   | 0.532                  | 0.532                        |
| 40      | श्रीमति श्यामपाटीदार पत्नि भागीरथ   | 248         | 0.170                  | 0.170                        |
| 41      | दिनेश साहु पुत्र श्री भवरलाल साहु   | 252/1/1/1   | 0.101                  | 0.101                        |
| 42      | श्रीमती बिन्दू चौधरी पत्नी धनराज चौधरी<br>श्रीमती ललिता पटेल पत्नी मेहरबान सिंह पटेल        | 252/1/1/2/1 | 0.050                  | 0.050                        |
| 43      | सुनीता पटेल पत्नी मंगल सिंह   | 252/1/1/2/2 | 0.050                  | 0.050                        |
| 44      | श्रीमति हवीबा आलम पत्नि बदरआलम  | 252/1/1/3   | 0.101                  | 0.101                        |
| 45      | चन्द्रकुमारशुक्ला आ.आलोपी प्रसादशुक्ला व श्रीमति मायादेवी शुक्ला पत्नि<br>चन्द्रकुमारशुक्ला | 252/1/1/4   | 0.101                  | 0.101                        |
| 46      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 252/1/1/5   | 0.627                  | 0.627                        |
| 47      | सुजीत सेन पुत्र एन.सी.सैन व अंकित सेन पुत्र सुजीत सेन                                       | 252/1/1/6   | 0.344                  | 0.344                        |
| 48      | रेणु पंत पत्नी डा. ललित मोहन पंत  | 252/1/1/7   | 0.101                  | 0.101                        |
| 49      | राहुल यादव पुत्र पी एन यादव   | 252/1/2/1   | 0.101                  | 0.101                        |
| 50      | प्रसन्न कुमार दाश पुत्र शत्रुघ्न दाश एवं संजुक्ता दाश पत्नी प्रसन्न कुमार दाश               | 252/1/2/2   | 0.202                  | 0.202                        |
| 51      | पी.के.दास पुत्र शत्रुघ्न दाश  | 252/1/3     | 0.202                  | 0.202                        |
| 52      | सोनीशुक्ला पुत्री सी.के. शुक्ला व श्रीमति मायादेवी पत्नि सी.के.शुक्ला                       | 252/1/4     | 0.202                  | 0.202                        |
| 53      | ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल  | 252/2/1/1   | 0.012                  | 0.012                        |
| 54      | हिमांशु जोशी पुत्र ईश्वरीयप्रसाद जोशी   | 252/2/1/2   | 0.178                  | 0.178                        |
| 55      | श्रीमति राधासिंह पत्नि जी.एस.ठाकुर व फुमारी रितू सिंह पुत्री जी.एस.ठाकुर                    | 252/2/2     | 0.405                  | 0.405                        |
| 56      | श्रीमति विमलाजैन पत्नि सुरेशजैन   | 252/2/3     | 0.166                  | 0.166                        |
| 57      | हिमांशु जोशी पुत्र ईश्वरीयप्रसाद जोशी   | 252/2/4     | 0.708                  | 0.708                        |
| 58      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 253/1       | 1.704                  | 1.704                        |
| 59      | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 253/2       | 2.647                  | 2.647                        |
| 60      | राजीवकुमार जैन आ.शिखरचन्द जैन व श्रीमति आनन्द जैन पत्नि राजीवकुमार जैन                      | 255/1/1/1   | 0.101                  | 0.101                        |
| 61      | रत्नचन्द जैन आ.बालदंद व श्रीमति चमेलीदेवी पत्नि रत्नचन्द्र जैन                              | 255/1/1/2   | 0.190                  | 0.190                        |
| 62      | विमल जैन आ. पन्नालाल व श्रीमति कुसुम जैन पाटीदार पत्नि विमलजैन                              | 255/1/1/3   | 0.101                  | 0.101                        |
| 63      | अभिषेक बड़कुल आ.सुभाष बड़कुल  | 255/1/1/4   | 0.101                  | 0.101                        |
| 64      | गोपाल आ. बाबूलाल  | 255/1/1/5   | 0.101                  | 0.101                        |
| 65      | पतिक गुप्ता आ. हरिओम व नवीन गुप्ता आ.हरिओम गुप्ता   | 255/1/1/6   | 0.101                  | 0.101                        |
| 66      | बालकृष्ण मिश्रा आ.एस.आर. मिश्रा   | 255/1/1/7   | 0.101                  | 0.101                        |
| 67      | रश्मि लोहनी पत्नी कोशल कुमार लोहनी  | 255/1/1/8   | 0.101                  | 0.101                        |
| 68      | सुनिल कुमार लोहनी पुत्र निलोचन लोहनी  | 255/1/1/9   | 0.101                  | 0.101                        |
| 69      | संजय वंसल पुत्र बृज बल्लभ दास वंसल श्रीमती ज्योति वंसल पत्नी संजय वंस                       | 255/1/1/10  | 0.101                  | 0.101                        |
| 70      | विनय अग्रवाल आ.एस.के. अग्रवाल   | 255/1/1/11  | 0.101                  | 0.101                        |
| 71      | श्रीमति ममता सक्सेना पत्नि ए.के.सक्सेना   | 255/1/1/12  | 0.101                  | 0.101                        |
| 72      | हिमांशुजोशी आ.आई.डी.जोशी श्रीमति पल्लवीजोशी पत्नि हिमांशुजोशी व तृप्तीजो                    | 255/1/1/14  | 0.202                  | 0.202                        |
| 73      | शिवकुमार गौड़ पुत्र स्व मानक लाल गौड़   | 255/1/1/15  | 0.169                  | 0.169                        |
| 74      | हिमांशु जोशी पुत्र ईश्वरीय दत्त जोशी  | 255/1/1/16  | 0.340                  | 0.340                        |
| 75      | गोपाल आ. बाबूलाल  | 255/1/3     | 1.651                  | 1.651                        |

| क्रमांक | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------|---|------------|------------------------|------------------------------|
| 76      | बाबूलाल पुत्र उमरावसिंह   | 255/2      | 2.983                  | <b>2.983</b>                 |
| 77      | श्रीमति गरिमा भगत पल्लि श्रीमधुकरमगत  | 256/2/1/4  | 0.049                  | <b>0.049</b>                 |
| 78      | सुमीतपन्त आ.एन.सी.पन्त.   | 256/2/2/1  | 0.166                  | <b>0.166</b>                 |
| 79      | श्रीमति अलका अग्रवाल पल्लि विपुल अग्रवाल  | 256/2/2/2  | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 80      | एस डी सिंह पुत्र डी पी सिंह   | 256/2/2/3  | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 81      | संजय कुलश्रेष्ठ पुत्र गिरिसचन्द्र कुलश्रेष्ठ  | 256/2/2/4  | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 82      | जयेशचोपडा आ.एल.के.चौपडा   | 256/2/2/5  | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 83      | बबीता भारती सरीन पत्नी आदेश भारती   | 256/2/2/6  | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 84      | जिनेस कुमार पुत्र सीतचन्द्र जैन   | 256/2/2/7  | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 85      | मथुरा सिंह विष्ट आ.सी.एस. विष्ट   | 256/2/2/8  | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 86      | सत्यप्रकाश सेंगर आ.लाला राम सेंगर   | 256/2/2/9  | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 87      | किरण बड़कुर पत्नी डी.पी. बड़कुर   | 256/2/2/10 | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 88      | महेश अग्रवाल पुत्र स्व राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल | 256/2/2/11 | 0.053                  | <b>0.053</b>                 |
| 89      | महेश अग्रवाल पुत्र स्व राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल | 256/2/2/21 | 0.097                  | <b>0.097</b>                 |
| 90      | महेश अग्रवाल पुत्र स्व राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल | 256/2/2/22 | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 91      | महेश अग्रवाल पुत्र स्व राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल | 256/2/2/24 | 0.049                  | <b>0.049</b>                 |
| 92      | मिथिलेश कुमार सिन्हा बानेश्वरप्रसाद सिन्हा  | 256/2/2/12 | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 93      | प्रेम नारायण आ.उमराव सिंह   | 256/2/2/13 | 0.202                  | <b>0.202</b>                 |
| 94      | प्रेम नारायण आ.उमराव सिंह   | 256/2/2/15 | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 95      | प्रेम नारायण आ.उमराव सिंह   | 256/2/2/19 | 0.178                  | <b>0.178</b>                 |
| 96      | श्रीमति ज्योत्सना जैन पल्लि श्री के.सी.जैन व श्री के.सी.जैन आ.सूरजमल जैन  | 256/2/2/14 | 0.190                  | <b>0.190</b>                 |
| 97      | विमल कानूनगो पत्नी एन डी कानूनगो  | 256/2/2/16 | 0.097                  | <b>0.097</b>                 |
| 98      | श्रीमति शशीकला बोन्डो पल्लि आर.एस.बोन्डो  | 256/2/2/17 | 0.097                  | <b>0.097</b>                 |
| 99      | अन्जना त्रिपाठी पत्नी दिपक त्रिपाठी   | 256/2/2/18 | 0.053                  | <b>0.053</b>                 |
| 100     | श्रीसत्यानन्द मिश्रा आ. श्यामसुन्दर मिश्रा व श्री मति यशोधारा मिश्रा पल्लि सत्यानन्द मिश्रा                     | 256/2/2/20 | 0.101                  | <b>0.101</b>                 |
| 101     | श्रीमति रेणुकासिन्हा पल्लि मिथिलेशकुमार सिन्हा  | 256/2/2/23 | 0.154                  | <b>0.154</b>                 |
| 102     | श्रीमति कल्पना रावतानी पल्लि श्री सगीर रावतानी  | 256/2/2/25 | 0.053                  | <b>0.053</b>                 |
| 103     | अम्बिकाप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 256/2/1/1  | 1.214                  | <b>1.214</b>                 |
| 104     | अम्बिकाप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 256/2/1/3  | 0.728                  | <b>0.728</b>                 |

| क्रमांक       | भू स्वामी का नाम  | खसरा नम्बर            | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 105           | सुधीर भण्डारी पिता प्रकाश भण्डारी                                     | 262/1/1/1             | 1.618                  | 1.618                        |
| 106           | आस्था रियल्टी द्वारा पार्टनर अजय मोहगांवकर पुत्र एस डब्ल्यू मोहगांवकर | 262/1/1/2             | 0.405                  | 0.405                        |
| 107           | विपिन कुमार पिता वसंत कुमार   | 264/1                 | 1.453                  | 1.453                        |
| 108           | हेमंत कुमार शुक्ला आं० अविका प्रसाद                                   | 265/1/1               | 0.024                  | 0.024                        |
| 109           | आशा शुक्ला  | 265/2/1               | 0.029                  | 0.029                        |
| 110           | मंजू सिंधई  | 265/3                 | 0.121                  | 0.121                        |
| 111           | संतोष कुमार सिंधई   | 265/4/1               | 0.020                  | 0.020                        |
| 112           | दिनेश कुमार लखानी   | 266/1/2               | 0.210                  | 0.210                        |
| 113           | दिनेश कुमार लखानी   | 266/1/3               | 0.141                  | 0.141                        |
| 114           | दिनेश कुमार लखानी   | 266/2/1               | 0.352                  | 0.352                        |
| 115           | कृष्ण मुलचंदानी   | 266/2/2               | 0.352                  | 0.352                        |
| 116           | प्रभा लोहाडे  | 266/3/1               | 0.172                  | 0.172                        |
| 117           | जय कुमार जैन  | 266/3/2               | 0.178                  | 0.178                        |
|               |   | कुल रकबा              | 58.910                 | 58.910                       |
| <b>शासकीय</b> |   |                       |                        |                              |
| 1             | मध्यप्रदेश शासन नाला  | 232                   | 0.543                  | 0.543                        |
| 2             | मध्यप्रदेश शासन सरस्ता  | 239                   | 0.053                  | 0.053                        |
| 3             | मध्यप्रदेश शासन नाला  | 241                   | 0.283                  | 0.283                        |
| 4             | मध्यप्रदेश शासन   | 245                   | 0.547                  | 0.547                        |
| 5             | मध्यप्रदेश शासन अर्बन सीलिंग  | 262/2                 | 0.930                  | 0.930                        |
| 6             | मध्यप्रदेश शासन नाला  | 236                   | 0.247                  | 0.247                        |
| 7             | मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग नहर                                      | 255/1/2               | 0.453                  | 0.453                        |
| 8             | राष्ट्रीय राजमार्ग  | 265/1/2               | 0.097                  |                              |
| 9             | राष्ट्रीय राजमार्ग 12   | 265/2/2               | 0.089                  |                              |
| 10            | राष्ट्रीय राजमार्ग 12   | 265/4/2               | 0.098                  |                              |
|               |   | कुल रकबा              | 2.797                  | 2.513                        |
|               |   | कुल रकबा ग्राम मिसरोद | 61.707                 | 61.423                       |
|               | नगर विकास स्कीम का कुल क्षेत्रफल                                      |                       | 214.798                | 180.498                      |

नोट: उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई भी खसरा या उसका बटान जो कि सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु नगर विकास स्कीम सीमा के भीतर स्थित है, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित माना जावेगा।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमति के अनुसार ही करेगा।

## प्ररूप सोलह

{नियम 19(2) देखिए}

धारा 50 की उप-धारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा(1) के अधीन एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि भोपाल विकास, भोपाल नगर विकास स्कीम क्रमांक - TDS 214/BHO/2023 अर्थात् ग्राम पलासी मार्ग क्षेत्र में बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :

## AEROCITY EXTENTION

ग्राम पलासी

| क्र. | भूस्वामी  | खसरा न.       | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|---|---------------|---------------|---------------------------|
| 1    | श्यामबाबू आत्मज रंगलाल अग्रवाल  | 2             | 1.153         | 0.524                     |
| 2    | श्यामबाबू आत्मज रंगलाल अग्रवाल  | 4             | 1.631         | 1.575                     |
| 3    | संजय आत्मज श्यामबाबू  | 3/1           | 0.639         | 0.639                     |
| 4    | वनिता पत्नी संजय अग्रवाल  | 3/2           | 1.822         | 1.822                     |
| 5    | ओमप्रकाश आत्मज श्यामबाबू अग्रवाल  | 3/3           | 0.639         | 0.639                     |
| 6    | प्रीति अग्रवाल पत्नी ओमप्रकाश अग्रवाल   | 3/4           | 1.822         | 1.822                     |
| 7    | श्रीमती कुसुमदेवी पत्नी श्यामबाबू अग्रवाल   | 3/5           | 1.822         | 1.822                     |
| 8    | मिश्रीलाल आत्मज भवंरजी  | 5, 6          | 1.554         | 1.554                     |
| 9    | गीताप्रसाद बालिंग ओमप्रकाश जगन्नाथ नाना पुत्र गणेश व. विगुलाबबाई बेवा गणेश व खुद गुलाबबाई बेवा गणेश | 7             | 4.913         | 4.913                     |
| 10   | महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रगण गणपति सिंह  | 8/1           | 0.809         | 0.809                     |
| 11   | बादाम सिंह आत्मज तेज सिंह उमराबाई पत्नी मिश्रीलाल   | 8/2/1/1       | 0.332         | 0.332                     |
| 12   | करनसिंह आत्मज मिश्रीलाल   | 8/2/1/2       | 0.575         | 0.575                     |
| 13   | निरंजन आत्मज जैराम वर्मा  | 8/2/1/3       | 0.166         | 0.166                     |
| 14   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ  | 8/2/1/4/1/1/1 | 0.3031        | 0.3031                    |
| 15   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ  | 8/2/1/4/1/1/2 | 0.0075        | 0.0075                    |
| 16   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ  | 8/2/1/4/1/2   | 0.0074        | 0.0074                    |
| 17   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ  | 8/2/1/4/2     | 0.014         | 0.014                     |
| 18   | राजबहादुर आत्मज तुलसीराम शातिदेवी   | 8/2/2/1/1     | 0.3246        | 0.3246                    |
| 19   | राजबहादुर आत्मज तुलसीराम शातिदेवी   | 8/2/2/1/2     | 0.0074        | 0.0074                    |
| 20   | लाल सिंह आत्मज इमरत सिंह  | 8/2/2/2       | 0.6640        | 0.664                     |
| 21   | मनीष आत्मज भानुप्रताप   | 8/2/2/3       | 0.166         | 0.166                     |
| 22   | मिश्रीलाल आत्मज भवंरजी  | 8/4/1         | 0.85          | 0.85                      |

| क्र. | भूस्वामी   | खसरा न.                | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|--|------------------------|---------------|---------------------------|
| 23   | भोजपाल , हरीश सुदेश, भुनेश्वर पुत्रगण गंगाप्रसाद | 8/4/2/1                | 0.4355        | 0.4355                    |
| 24   | भोजपाल . हरीश सुदेश, भुनेश्वर पुत्रगण गंगाप्रसाद | 8/4/2/2                | 0.0055        | 0.0055                    |
| 25   | श्रीमती विधा दुबे पत्नी एस. एन. दुबे             | 8/4/3                  | 0.166         | 0.166                     |
| 26   | वीरसिंह आत्मज भागीरथ                             | 10/1, 26/1, 26/2/1     | 1.153         |                           |
| 27   | वीरसिंह आत्मज भागीरथ                             | 10/1/8                 | 2.165         |                           |
| 28   | निरंजनसिंह आत्मज भागीरथ                          | 10/1/2, 26/1, 26/2/1/2 | 1.153         |                           |
| 29   | कमलसिंह बल्द भागीरथ                              | 10/1/3, 26/1, 26/2/1/3 | 1.153         |                           |
| 30   | विश्वामसिंह आत्मज भागीरथ                         | 10/1/4, 26/1, 26/2/1/4 | 1.153         |                           |
| 31   | विश्वामसिंह आत्मज भागीरथ                         | 26/2/1/10              | 2.165         |                           |
| 32   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ                           | 26/2/1/5               | 1.158         |                           |
| 33   | ज्ञानसिंह आत्मज भागीरथ                           | 10/1/9, 26/1, 26/2/1/9 | 2.165         |                           |
| 34   | निरंजनसिंह आत्मज भागीरथ                          | 10/1/6, 26/1, 26/2/1/6 | 2.192         |                           |
| 35   | निरंजनसिंह आत्मज भागीरथ                          | 10/1/7                 | 2.165         |                           |
| 36   | भगवानसिंह आत्मज जैकिसन                           | 10/2, 26/2, 26/2/2     | 0.348         |                           |
|      | बटान उपलब्ध नहीं                                 | कुल                    | 16.97         | 4.25                      |
| 37   | छोटेराम आत्मज हीरालाल                            | 15/1                   | 1.651         | 1.651                     |
| 38   | किसनलाल आत्मज हीरालाल                            | 15/2                   | 1.547         | 1.547                     |
| 39   | किसनलाल आत्मज हीरालाल                            | 16                     | 0.886         | 0.886                     |
|      | <b>TOTAL AREA</b>                                | <b>41.882</b>          | <b>28.477</b> |                           |

**शासकीय भूमि**

|   |   |               |              |       |
|---|---|---------------|--------------|-------|
| 1 | मध्य प्रदेश शासन  | 1             | 10.485       | 3.5   |
| 2 | मध्य प्रदेश शासन नजूल भूमि, गोहा                        | 17            | 1.72         | 1.72  |
| 3 | मध्य प्रदेश शासन नजूल भूमि, चरोखर निस्तार, चरागाह तालाब | 18            | 0.486        | 0.486 |
|   | <b>TOTAL AREA</b>                                       | <b>12.691</b> | <b>5.706</b> |       |

**ग्राम नवीबाग**

|   |              |                         |              |       |
|---|--------------|-------------------------|--------------|-------|
| 1 | महकमा फार्म  | 1/2, 2, 5/3             | 5.681        | 2.842 |
| 2 | महकमा फार्म  | 1/3, 5/2, 6, 7, 115/9/1 | 5.582        | 2.717 |
| 3 | महकमा फार्म  | 5/1                     | 1.181        | 0.71  |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>12.444</b>           | <b>6.269</b> |       |

**ग्राम लाम्बाखेड़ी**

|   |                              |      |       |       |
|---|------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | नीरज शर्मा पुत्र के एल शर्मा | 69/1 | 2.784 | 0.905 |
| 2 | नीरज शर्मा पुत्र के एल शर्मा | 69/2 | 3.65  | 1.3   |

| क्र. | भूस्वामी  | खसरा नं.          | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|---|-------------------|---------------|---------------------------|
| 3    | डा. कैलाश चन्द्र अग्रवाल आ. रामभरोसे अग्रवाल , लता अग्रवाल पत्नी डा. कैलाश चन्द्र अग्रवाल हि.1.052हैक्टर ऋषि कुमार अग्रवाल आ. डा. कैलाश चन्द्र हि.1.635 हैक्टर राहुल अग्रवाल आ. डा.कैलाशचन्द्र अग्रवाल हि.1.053है | 74/1, 75          | 5.99          |                           |
| 4    | रामरत्न पुत्र दयाराम  | 74/2/1, 75        | 0.602         |                           |
| 5    | रामरत्न पुत्र दयाराम  | 74/2/2, 75        | 0.405         |                           |
|      | बटान उपलब्ध नहीं  | कुल               | 6.997         | 0.32                      |
| 6    | जेरे एहतमाम महकमा भुमि  | 80/2              | 0.324         | 0.115                     |
|      |   | <b>TOTAL AREA</b> | <b>13.755</b> | <b>2.640</b>              |

**शासकीय भूमि**

|   |   |              |               |              |
|---|---|--------------|---------------|--------------|
| 1 | केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकीय संस्थान नाला झूब में | 77           | 0.401         | 0.140        |
| 2 | शेष झूब में                                       | 80/1         | 5.35          | 1.185        |
| 3 | शेष झूब में                                       | 304/69       | 4.8           | 3.877        |
| 4 | शेष झूब में                                       | 78           | 0.817         | 0.286        |
|   |   | <b>TOTAL</b> | <b>11.368</b> | <b>5.488</b> |

**ग्राम बड़बाई**

|    |   |          |       |       |
|----|---|----------|-------|-------|
| 1  | एस्सारजी कंस्ट्रक्शंस द्वारा श्री जी. सी. शाह                     | 20/1     | 2.428 |       |
| 2  | श्रीमती वंदना गुप्ता पत्नी श्री ऋषि कुमार गुप्ता                  | 20/2     | 0.202 |       |
| 3  | श्रीमती साशा गुप्ता पत्नी डॉ आर. के. गुप्ता                       | 20/3     | 0.202 |       |
| 4  | श्री अनूप रामपाल आत्मज श्री व्ही. के. रामपाल                      | 20/4     | 0.202 |       |
| 5  | श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री पीयुष गुप्ता                       | 20/5/1/1 | 0.872 |       |
| 6  | श्रीमती सपना सकलेचा पत्नी श्री शरद सकलेचा                         | 20/5/1/2 | 0.464 |       |
| 7  | श्री अर्जुन सिंगरोली आत्मज श्री प्रेमनारायण सिंगरोली              | 20/5/2   | 0.258 |       |
|    | बटान उपलब्ध नहीं  | कुल      | 4.628 | 2.554 |
| 8  | कृष्णाबाई पत्नी स्व. शेषराम                                       | 26/1     | 1.94  |       |
| 9  | कृष्णाबाई पत्नी स्व. शेषराम                                       | 26/2     | 0.404 |       |
|    | बटान उपलब्ध नहीं  | कुल      | 2.347 | 0.225 |
| 10 | ओम प्रकाश पिता निर्भय सिंह  | 27/1/1   | 0.206 |       |
| 11 | सुश्री सुरा पनेनी शांति पिता एच.एस.सी.बोस                         | 27/1/2   | 0.809 |       |
| 12 | सुश्री रेडडी श्रुति रेडडी पिता पुरुषोत्तम रेडडी                   | 27/1/3   | 0.404 |       |
| 13 | सुश्री सीता रेडडी पिता डॉ जयराम रेडडी                             | 27/1/4   | 0.809 |       |
| 14 | कृष्णाबाई पत्नी स्व. शेषराम                                       | 27/2/1   | 2.328 |       |
| 15 | कृष्णाबाई पत्नी स्व. शेषराम                                       | 27/2/2   | 0.404 |       |
|    | बटान उपलब्ध नहीं  | कुल      | 4.960 | 1.300 |
| 16 | विजयसिंह, अजय सिंह, पुष्पा त्यागी एवं सुमन सिंह पिता एम. पी. सिंह | 47/1     | 0.866 |       |
| 17 | बोंदीलाल अग्रवाल पिता जी एल अग्रवाल                               | 47/2     | 1.619 |       |
|    | बटान उपलब्ध नहीं  | कुल      | 2.485 | 0.110 |

| क्र. | भूस्वामी   | खसरा न.        | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|--|----------------|---------------|---------------------------|
| 18   | ओमप्रकाश पुत्र निर्भय सिंह   | 48/1/1         | 1.432         | 1.432                     |
| 19   | मेसर्स द्वारकाधीश हवेली बिल्डर्स एंड डेव्हलपर द्वारा भागीदार श्री विजय सिंह आत्मज स्व श्री एम. पी. सिंह एवं अन्य 9 भाग | 48/1/2         | 0.595         | 0.595                     |
| 20   | मेसर्स स्पार्क इंफा द्वारा श्रीमती कल्पना जौहरी  | 48/2           | 0.405         | 0.405                     |
| 21   | ओमप्रकाश पुत्र निर्भय सिंह   | 49             | 0.129         | 0.129                     |
| 22   | ओमप्रकाश पुत्र निर्भय सिंह   | 50             | 0.632         | 0.632                     |
| 23   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 53/1           | 0.186         | 0.186                     |
| 24   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 54/1           | 0.255         | 0.255                     |
| 25   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 55/1           | 0.077         | 0.077                     |
| 26   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 57/1/1         | 0.024         | 0.024                     |
| 27   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 53/2           | 0.186         | 0.186                     |
| 28   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 54/2           | 0.255         | 0.255                     |
| 29   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 55/2           | 0.077         | 0.077                     |
| 30   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 57/1/2         | 0.024         | 0.024                     |
| 31   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद  | 60/1, 61, 63   | 1.080         |                           |
| 32   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 60/2/1, 61, 63 | 0.125         |                           |
| 33   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 60/2/2         | 0.125         |                           |
|      | बटान उपलब्ध नहीं   |                | कुल           | 1.330                     |
| 34   | रिक्त भूमिस्वामी पिता भोपाल  | 61             | 0.000         | 0.000                     |
| 35   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद  | 62/1           | 0.049         | 0.049                     |
| 36   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 62/2/1         | 0.054         | 0.054                     |
| 37   | विनीता ताम्रकार पत्नी आनंद ताम्रकार  | 62/2/2         | 0.054         | 0.054                     |
| 38   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई  | 56             | 0.482         | 0.482                     |
| 39   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई  | 57/2           | 0.096         | 0.096                     |
| 40   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई  | 144/2/2        | 0.028         | 0.028                     |
| 41   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई  | 145/2          | 0.773         | 0.773                     |
| 42   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 57/3           | 0.239         | 0.239                     |
| 43   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 58             | 0.316         | 0.316                     |
| 44   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद  | 59             | 0.316         | 0.316                     |
| 45   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद  | 144/1          | 0.186         | 0.186                     |
| 46   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद  | 145/1          | 0.599         | 0.599                     |
| 47   | रिक्त भूमिस्वामी पिता भोपाल  | 63             | 0.000         | 0.000                     |
| 48   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 64             | 0.154         | 0.154                     |
| 49   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 65             | 0.093         | 0.093                     |
| 50   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 66             | 0.186         | 0.186                     |
| 51   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 67, 68         | 3.092         | 1.340                     |
| 52   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 69             | 0.267         | 0.267                     |
| 53   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 73             | 0.263         | 0.263                     |
| 54   | मोतीलाल पुत्र निर्भयसिंह   | 74             | 0.129         | 0.129                     |
| 55   | भंवरीबाई माता शिवनारायण पत्नी स्व. जमीदार नारायणीबाई पुत्री स्व. जमीदार  | 70             | 0.068         | 0.068                     |
| 56   | भंवरीबाई माता शिवनारायण पत्नी स्व. जमीदार नारायणीबाई पुत्री स्व. जमीदार  | 75             | 0.150         | 0.150                     |

| क्र. | भूस्वामी   | खसरा न. | कुल क्षेत्रफल | स्थीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|--|---------|---------------|---------------------------|
| 57   | श्रीमती भूरीबाई छोटीबाई उर्फ राजकुमारी   | 71      | 0.113         | 0.113                     |
| 58   | श्रीमती भूरीबाई छोटीबाई उर्फ राजकुमारी   | 72/1    | 0.134         | 0.134                     |
| 59   | श्रीमती भूरीबाई छोटीबाई उर्फ राजकुमारी   | 76/1    | 0.182         | 0.182                     |
| 60   | सत्यनारायण मुकेश जमुनाबाई लक्ष्मीबाई रुकमणीबाई सुरजनबाई पुत्र पुत्री गण स्व जर्मीदार भंवरीबाई 2 नारायणीबाई पुत्री स्व. जर्मीदार  | 72/2    | 0.134         | 0.134                     |
| 61   | सत्यनारायण मुकेश जमुनाबाई लक्ष्मीबाई रुकमणीबाई सुरजनबाई पुत्र पुत्री गण स्व जर्मीदार भंवरीबाई 2 नारायणीबाई पुत्री स्व. जर्मीदार  | 76/2    | 0.194         | 0.194                     |
| 62   | सत्यनारायण मुकेश जमुनाबाई लक्ष्मीबाई रुकमणीबाई सुरजनबाई पुत्र पुत्री गण स्व जर्मीदार भंवरीबाई 2 नारायणीबाई पुत्री स्व. जर्मीदार  | 444/76  | 0.040         | 0.040                     |
| 63   | कृष्णाबाई पत्नी स्व. शेषराम  | 72/3    | 0.134         | 0.134                     |
| 64   | रमजानखां   | 78      | 1.307         | 1.307                     |
| 65   | श्रीमती जड़ियाबाई पत्नी स्व श्री कालूराम , नरेश अहिरवार पुत्र स्व श्री कालूराम अहिरवार , शिवलाल पुत्र स्व श्री कालूराम अहिरवार,रमेश पुत्र स्व श्री कालूराम अहिरवार ,अशोक पुत्र स्व श्री कालूराम अहिरवार ,सौरम बाई पुत्री स्व श्री कालूराम ,नारायणी बाई पुत्री स्व श्री कालूराम अहिरवार ,संता बाई पुत्री स्व श्री कालूराम अहिरवार | 82      | 1.068         | 1.068                     |
| 66   | रामजीवन ओमप्रकाश फूलसिंह हेमराज मोहन पुत्र देवकरण  | 83      | 1.218         | 0.305                     |
| 67   | भंवरीबाई माता जर्मीदार   | 134/1   | 0.666         | 0.630                     |
| 68   | लक्ष्मीनारायण पुत्र निर्भयसिंह   | 134/2   | 0.657         | 0.121                     |
| 69   | भंवरीबाई माता शिवनारायण पत्नि जर्मीदार, नारायणीबाई पुत्री स्व. जर्मीदार  | 135/1   | 0.913         | 0.200                     |
| 70   | ओमप्रकाश मेवाड़ा पुत्र स्व. रामलाल मेवाड़ा   | 138/1/1 | 0.311         | 0.311                     |
| 71   | श्रीमती कमर खान पत्नी डा.अजहर मोहम्मद खान  | 138/1/2 | 0.303         | 0.303                     |
| 72   | ओमप्रकाश मेवाड़ा पुत्र स्व. रामलाल मेवाड़ा   | 138/2/1 | 0.305         | 0.220                     |
| 73   | अफरोज फारुखी पत्नी शमीम फारुखी   | 138/2/2 | 0.305         | 0.070                     |
| 74   | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल  | 139/1   | 0.637         | 0.637                     |
| 75   | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल  | 139/2   | 0.637         | 0.637                     |
| 76   | सुनीता बेवा भगवानदास पुत्र भगवानदास  | 142     | 0.109         | 0.109                     |
| 77   | ज्योति गोयल पत्नी अशोक गोयल  | 143     | 0.721         | 0.721                     |
| 78   | श्रीमती ग्यारसीबाई बेवा द्वारकाप्रसाद महेन्द्र मीणा आ.   | 144/1   | 0.186         | 0.186                     |
| 79   | यामाबाई पुत्री पंचमसिंह  | 144/2/1 | 0.149         | 0.149                     |

| क्र. | भूस्वामी  | खसरा न.    | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|---|------------|---------------|---------------------------|
| 80   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई पुत्र पुत्री स्व. पंचम सिंह                           | 144/2/2    | 0.028         | 0.028                     |
| 81   | राधेश्याम गुलाब सिंह छोटेराम भारत सिंह श्यामबाई पुत्र पुत्री स्व. पंचम सिंह                           | 145/2      | 0.773         | 0.773                     |
| 82   | सचिन गिरधर आशीष गिरधर पुत्रगण ओमप्रकाश  | 147/1      | 0.433         | 0.433                     |
| 83   | सचिन गिरधर आशीष गिरधर पुत्रगण ओमप्रकाश  | 147/2      | 0.433         | 0.433                     |
| 84   | बद्री प्रसाद पुत्र भगवानसिंह  | 148/1      | 0.760         | 0.760                     |
| 85   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 148/2      | 0.591         | 0.591                     |
| 86   | बद्री प्रसाद पुत्र भगवानसिंह  | 149        | 0.494         | 0.494                     |
| 87   | बद्री प्रसाद पुत्र भगवानसिंह  | 150        | 0.364         | 0.364                     |
| 88   | बद्री प्रसाद पुत्र भगवानसिंह  | 445/151    | 0.486         | 0.486                     |
| 89   | आशीष अग्रवाल एच जी गुप्ता   | 151        | 0.437         | 0.437                     |
| 90   | आशीष अग्रवाल एच जी गुप्ता   | 152        | 0.640         | 0.640                     |
| 91   | आशीष अग्रवाल एच जी गुप्ता   | 153        | 0.449         | 0.449                     |
| 92   | आशीष अग्रवाल एच जी गुप्ता   | 154        | 0.057         | 0.057                     |
| 93   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 155/1      | 2.591         | 0.376                     |
| 94   | श्रीमती ग्यारसीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद   | 155/2      | 0.324         | 0.324                     |
| 95   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 156        | 1.809         | 1.809                     |
| 96   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 157/1      | 0.508         | 0.508                     |
| 97   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 157/2      | 0.508         | 0.508                     |
| 98   | धर्मन्द्र सिंह मीणा पुत्र द्वारकाप्रसाद मीणा  | 158        | 0.938         | 0.938                     |
| 99   | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल   | 159/1      | 1.042         | 1.042                     |
| 100  | विजयसिंह पुत्र प्रभूलाल   | 159/2      | 1.042         | 1.042                     |
| 101  | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल व वली माता खुद  | 160/1      | 7.284         | 7.284                     |
| 102  | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल व वली माता खुद  | 160/2/1    | 2.591         | 2.591                     |
| 103  | कीरतसिंह पुत्र प्रभूलाल व वली माता खुद  | 160/2/2    | 3.591         | 3.591                     |
| 104  | राजेशकुमार पुत्र नीमचन्द  | 182        | 0.182         | 0.182                     |
| 105  | फूलाबाई सरजूबाई पुत्री नीमचन्द  | 183        | 0.376         | 0.376                     |
| 106  | फातिमा खान पत्नी मोहम्मद सिद्दीकी   | 185        | 0.178         | 0.178                     |
| 107  | सत्यनारायण पुत्र जमीदार नारायणीबाई पुत्र स्व जमीदार   | 186/1      | 0.210         | 0.210                     |
| 108  | सत्यनारायण पुत्र जमीदार नारायणीबाई पुत्र स्व जमीदार   | 186/2      | 0.210         | 0.210                     |
| 109  | श्रीमति भूराबाई पत्नी नारायण सिंह छोटीबाई उर्फ राजकुमारी चन्द्राबाई मिथ्लेश बाई पुत्रियां नारायण सिंह | 194/1      | 0.081         | 0.081                     |
| 110  | भंवरीबाई पत्नी जमीदार   | 194/2      | 0.081         | 0.081                     |
| 111  | लक्ष्मीनारायण पुत्र निर्भयसिंह  | 194/3      | 0.081         | 0.081                     |
| 112  | श्रीमति भूराबाई पत्नी नारायण सिंह छोटीबाई उर्फ राजकुमारी चन्द्राबाई मिथ्लेश बाई पुत्रियां नारायण सिंह | 195        | 0.195         | 0.195                     |
| 113  | श्रीमति नीलम पत्नी विजय प्रताप सिंह मास्टर यश सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह                             | 197        | 0.325         | 0.325                     |
| 114  | श्रीमती भूरीबाई पत्नी नारायण सिंह छोटीबाई उर्फ  | 198        | 0.186         | 0.186                     |
|      |   | TOTAL AREA | 65.838        | 51.379                    |

शासकीय भूमि

| क्र. | भूस्वामी             | खसरा न.                          | कुल क्षेत्रफल | स्कीम में शामिल क्षेत्रफल |
|------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | शासकीय गोहा          | 141                              | 0.267         | 0.267                     |
| 2    | शासकीय रास्ता        | 51                               | 0.854         | 0.600                     |
| 3    | शासकीय रास्ता        | 52                               | 0.445         | 0.234                     |
| 4    | शासकीय रास्ता        | 77                               | 0.994         | 0.994                     |
| 5    | शासकीय रास्ता        | 137                              | 0.393         | 0.160                     |
| 6    | शासकीय रास्ता        | 184                              | 0.109         | 0.076                     |
| 7    | शासकीय मरघट          | 140                              | 2.335         | 2.335                     |
| 8    | शासकीय नाला          | 128                              | 0.110         | 0.110                     |
| 9    | शासकीय नाला          | 443/76                           | 0.032         | 0.032                     |
| 10   | शासकीय नाला          | 146                              | 0.672         | 0.672                     |
| 11   | शासकीय नाला          | 196                              | 0.158         | 0.158                     |
|      | शासकीय मार्ग निर्मित | 18                               | 1.554         | 0.600                     |
|      |                      | <b>TOTAL AREA</b>                | <b>7.656</b>  | <b>6.238</b>              |
|      |                      | नगर विकास स्कीम का कुल क्षेत्रफल | 165.634       | 106.197                   |

नोट: उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई भी खसरा या उसका बटान जो कि सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु नगर विकास स्कीम सीमा के भीतर स्थित है, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित माना जावेगा।

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमति के अनुसार ही करेगा।

(G-608)

बुद्धेश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. 15069-TDS-03-UJN-2022

**“प्ररूप – अठारह  
(नियम 19 (5) देखिए)**

**धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा की सूचना**

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS - 03/2022 ग्राम निमनवासा, लालपुर, नागझिरी एवं ग्राम धतरावदा तैयार की गई है तथा म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा 3 के अधीन सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालय अवधि में निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है:-

- (1). उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन।
- (2). कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन।
- (3). उज्जैन विकास प्राधिकरण की वेबसाईट - [www.udaujjain.org](http://www.udaujjain.org) पर उपलब्ध है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में, म.प्र.राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा।

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(G-609)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मुझे कुमारी आरती बेलदार पुत्री हरिहर बेलदार, अभिलेखों में लिखा एवं सम्बोधित किया जा रहा था, तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय राजस्व अभिलेखों व स्कूल, कालेजों के समस्त रिकार्डों में मेरा नाम कुमारी आरती बेलदार पुत्री हरिहर बेलदार था। तथा विवाह के पश्चात मुझे आरती भदौरिया पत्नी श्री अजय भदौरिया के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

अतः आज दिनांक से मुझे आरती भदौरिया पत्नी श्री अजय भदौरिया के नाम से ही लिखा एवं जाना—पहचाना जा सके।

|  |  |
|--|--|
| पुराना नाम<br><b>(कुमारी आरती बेलदार)</b><br>(G-610) | नया नाम<br><b>(आरती भदौरिया)</b><br>निवासी—रामटेकरी (जेल मोड़ के सामने)<br>सतना—जिला सतना (म.प्र.) |
|--|--|

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओसियन रियल्टी फर्म जिसका पता— शॉप न. 115, शांति ट्रेजर इन्डौर (एम.पी.) जिसका पंजीयन कमांक 03-27-01-0492-23 दिनांक 20-02-2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री हर्षदीप सिंह पिता श्री जगन्नाथ सिंह 2. श्री वीरेन्द्र नागर पिता श्री करण सिंह नागर एवं 3. श्री सजल गोयल पिता स्व. श्री प्रदीप गोयल थे। तत्पश्चात् दिनांक 05-04-2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री हर्षदीप सिंह पिता श्री जगन्नाथ सिंह भागीदारी फर्म मेसर्स ओसियन रियल्टी से पृथक हो गए हैं, भागीदार ने फर्म मेसर्स ओसियन रियल्टी से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना—देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

|         |  |
|---------|--|
| (G-611) | मे. ओसियन रियल्टी<br>1. श्री वीरेन्द्र नागर<br>2. श्री सजल गोयल<br>(भागीदार) |
|---------|--|

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रामसिंह सेहरिया पुत्र श्री हरी राम है जो मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में दर्ज है। मेरा आयुष्मान कार्ड बनवाते समय लिपिक त्रुटि से मेरे आधार कार्ड में गलत नाम महाराज सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है। इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे अपने सही नाम रामसिंह सेहरिया पुत्र श्री हरी राम से जाना, पहचाना, एवं पुकारा जावे।

|  |  |
|--|--|
| गलत नाम<br><b>(महाराज सिंह)</b><br>(G-612) | सही नाम<br><b>(रामसिंह सेहरिया)</b><br>पुत्र श्री हरी राम<br>पोस्ट बरेठ, बगरू, विदिशा (म.प्र.) |
|--|--|

### नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी बोधवानी पुत्री घनश्याम दास बोधवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पश्चात् मेरा नाम ऋषिका चाँदवानी पल्ली मनीष चाँदवानी हो गया था. जो मेरे EPFO के UAN No.-101314831996 में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मेरे पिता से मेरा विच्छेद (DIVORCE) हो जाने से मेरा नाम लक्ष्मी बोधवानी पुत्री घनश्याम दास बोधवानी हो गया है और वर्तमान में मैं लक्ष्मी बोधवानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम लक्ष्मी बोधवानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी लक्ष्मी बोधवानी एवं ऋषिका चाँदवानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे EPFO के UAN No.-101314831996 में मेरा नाम ऋषिका चाँदवानी के स्थान पर लक्ष्मी बोधवानी लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम  
(ऋषिका चाँदवानी)

नया नाम  
(लक्ष्मी बोधवानी)  
पुत्री श्री घनश्याम दास बोधवानी  
पता—गेंदडे वाली सड़क, लश्कर  
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-613)

### नाम परिवर्तन

मैं, चंचल यादव (CHANCHAL YADAV) पुत्री स्व. श्री अरविन्द यादव सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम प्रेरणा यादव (PRERNA YADAV) था। जो मेरे पिता स्व. श्री अरविन्द यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 200167983 के नोमिनेशन में लिखा गया है वर्तमान में मैं, चंचल यादव पुत्री स्व. श्री अरविन्द यादव के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मार्कशीट, मैं भी लिखा हुआ है. और भविष्य में भी मैं चंचल यादव पुत्री स्व. श्री अरविन्द यादव के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. चंचल यादव तथा प्रेरणा यादव दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पिता स्व. श्री अरविन्द यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 200167983 के नोमिनेशन मे मेरा नाम प्रेरणा यादव के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम चंचल यादव लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम  
(प्रेरणा यादव)

नया नाम  
(चंचल यादव)  
पुत्री स्व. श्री अरविन्द यादव  
बीरबल सिंह का बाड़ा, लक्कड़खाना,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-614)

### नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश कुमार पारासर (Mukesh Kumar Parashar) पुत्र श्री रामेश्वर दयाल पारासर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम यमुना प्रसाद पारासर (Yamuna Prasad Parashar) था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202329048 में लिखा गया है. वर्तमान में, मैं, मुकेश कुमार पारासर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल पारासर के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि मैं भी लिखा हुआ है और भविष्य में भी मुकेश कुमार पारासर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. मुकेश कुमार

पारासर तथा यमुना प्रसाद पारासर दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202329048 में मेरा नाम यमुना प्रसाद पारासर के स्थान पर मेरा सही नाम मुकेश कुमार पारासर लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम  
(यमुना प्रसाद पारासर)

नया नाम  
(मुकेश कुमार पारासर)  
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल पारासर  
79, पारासर मोहल्ल, ग्राम देवगढ़,  
तह. भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-615)

### नाम परिवर्तन

मैं, पूनम रंगवानी (PUNAM RANGWANI) पत्नी बृजलाल रंगवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम मीरा (MEERA) था। जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203224418 में लिखा गया है वर्तमान में, मैं, पूनम रंगवानी पत्नी बृजलाल रंगवानी के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड में भी लिखा हुआ है और भविष्य में भी मैं, पूनम रंगवानी पत्नी बृजलाल रंगवानी के नाम से ही जानी—पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी। पूनम रंगवानी तथा मीरा दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203224418 में मेरा नाम मीरा के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम पूनम रंगवानी लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम  
(मीरा)

नया नाम  
(पूनम रंगवानी)  
पत्नी बृजलाल रंगवानी  
मोहिनी फोर्ट व्यू कॉलोनी, कोटेश्वर  
मंदिर के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-616)

### जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रशस्त्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलस, पता—110, मिड राइस अपार्टमेन्ट, जल एन्कलेव, सिल्वर स्प्रिंग बायपास रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 03—27—01—0089—15 दिनांक 26—6—2015 है, फर्म दिनांक 18—4—2023 को भागीदारों की सहमति से विघटन लेख द्वारा भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत फर्म/भागीदार का विघटन किया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मे. प्रशस्त्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलस  
1. डॉ. हरिश चन्द्र मल्हौत्रा  
2. कविता सुरोलिया  
(भागीदार)

(G-617)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पी.एस. रेसीडेंसी फर्म पता रिलायंस इंफोकॉम के पास शिवपुरी (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन नं. 02-41-01-00039-13 दिनांक 31-05-2013 है. जिसमें दिनांक 1-2-2023 को (1) श्रीमती संगीता जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन, निवासी—जैन सदन महल रोड, कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (2) श्रीमती शिल्पी जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन, निवासी—जैन सदन महल रोड, कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (3) श्री तनिष्क जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन, निवासी—जैन सदन महल रोड, कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (4) श्री दिव्यांस जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन, निवासी—जैन सदन महल रोड, कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में सूचित करें.

(G-618)

मैसर्स पी.एस. रेसीडेंसी  
पवन कुमार जैन  
(भागीदार)  
रिलायंस इंफोकॉम के पास, शिवपुरी

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सदानन्द अरोरा एण्ड सन्स (एस.के.ओ. डीलरशीप) जो अपेजिट इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम कुशमोदा, पी.एच. नं. 77 ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-01-00230-11 दिनांक 24-1-2011 है. जिसमें दिनांक 15-1-2020 को भागीदार श्री अशोक अरोरा पुत्र स्व. श्री सदानन्द अरोरा की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से स्वतः पृथक् हो गये हैं. फर्म में दो भागीदार होने से एक की मृत्यु हो जाने पर फर्म स्वतः भंग हो गई है. शेष भागीदार अरविंद कुमार अरोरा फर्म को प्रॉपर्टीइटर के रूप में संचालित करेंगे.

(G-619)

मैसर्स सदानन्द अरोरा एण्ड सन्स (एस.के.ओ. डीलरशीप)  
अरविंद कुमार अरोरा  
(भागीदार)  
अपेजिट इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम कुशमोदा,  
पी.एच.नं. 77, ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सी.पी. गुड्स जो एम-40, गांधी नगर, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00076-11 दिनांक 24-06-2011 है, जिसमें दिनांक 08-02-2023 को भागीदार श्री धीरज प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बी.पी. अग्रवाल एवं श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री बी.पी. अग्रवाल सभी भागीदारों की सहमति से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं (1) श्री प्रवीण शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे (2) श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे (3) श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम रैली सभी भागीदारों की सहमति एवं स्वयं की स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से भागीदारी फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय को एम-40, गांधी नगर, ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन पता गोविन्द बाग, नियर शाहीद गेट, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) किया जाता है.

(G-620)

मैसर्स सी.पी. गुड्स  
आशीष अग्रवाल  
(भागीदार)  
पता—गोविन्द बाग, नियर शाहीद गेट,  
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Vinita Jain hereby declare that, In some of my Documents my surname is written as Vinita Desrada also. But now I want to change it as Vinita Desrada to Vinita Jain W/o Vinod Jain. So from now and in future I will be known as Vinita Jain for all purpose.

|  |  |
|--|--|
| Old Name<br><b>(Vinita Desrada)</b><br><br>(G-621) | New Name<br><b>(Vinita Jain)</b><br>219, Goyal Nagar, Bangali Square,<br>Kanadia Road, Indore (M.P.).<br><br><b>नाम परिवर्तन</b> |
|--|--|

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गीता जैसवानी पुत्री श्री भीमसेन जैसवानी है। मेरा विवाह हरीश आहूजा पुत्र स्व. श्री केशव आहूजा के साथ हो जाने से सिंधी समाज की परम्परा अनुसार अब मैं, श्रीमती रितु आहूजा पत्नी श्री हरीश आहूजा निवासी-95, शान्ति नगर, नई सड़क, लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.) नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पुकारा जावे।

|  |   |
|--|---|
| पुराना नाम<br><b>(गीता जैसवानी)</b><br>पुत्री भीमसेन जैसवानी | नया नाम<br><b>(श्रीमती रितु आहूजा)</b><br>पत्नी श्री हरीश आहूजा<br>निवासी-95, शान्ति नगर, नई सड़क,<br>लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.). |
|--|---|

(G-622)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम रेहान तनवीर है, किन्तु उसके कुछ दस्तावेज में उसका नाम रेहान लिखा हुआ है। अतः मेरे पुत्र के जिस भी दस्तावेज में उसका नाम केवल रेहान लिखा हुआ है, उन सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका पूरा नाम रेहान तनवीर लिखा व पढ़ा जाए।

**प्रार्थी**  
**पिता-मोहम्मद तनवीर**  
 65, माल रोड, महू, इन्दौर (म.प्र.)

(G-623)

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Skyline Infrastructure Registered office at 7/1, New Palasia, Indore M.P. 452001 and Registration No. is 03-27-01-00174-10 dated 13-01-2010, which was constituted *vide* Partnership deed. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 18-09-2010 all partners have decided to change the principle place of firm From 7/1, New Palasia, Indore M.P. To Sitaram Chamber, 2nd floor (Chhawani), 25, Murai Mohalla, Indore M.P. In this

Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 27-03-2014 Shri Ramesh Khemani S/o Shri Hiranand Khemani has voluntarily retired from the Partnership firm. And now from 31<sup>st</sup> March 2014 Shri Shrikant Lalawat and Shri Mahesh Kumar Nagrani the both partners desire to change of terms and conditions to continued in writing the same are mentioned in this deed. In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 16-10-2017, 1. Shri. Vimal Lalawat S/o. Shri Govardhandas Lalawat 2. Shri. Sunny Nagrani S/o. Shri Kishanchand Nagrani and 3. Shri. Amit Nagrani S/o. Shri Bhajanlal Nagrani have joined the firm as a new partner. Now 1. Shri Shrikant Lalawat, 2. Shri Mahesh Kumar Nagrani, 3. Shri. Vimal Lalawat, 4. Shri. Sunny Nagrani and 5. Shri. Amit Nagrani are the running Partners in the Partnership firm.

M/s. Skyline Infrastructure  
**Mahesh Kumar Nagrani**  
 (Partner)

(G-624)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरा नाम निम्नानुसार परिवर्तित कर लिया है. मेरा पूर्व नाम राजेश लखवानी पिता स्व. श्री गंगाराम लखवानी, माता का नाम स्व. श्रीमती भगवती लखवानी था. अब मेरा नया नाम राजेश हिंदुलानी स्व. श्री फतेहचंद हुन्दलानी, माता का नाम स्व. श्रीमती लाजवंती हुन्दलानी माना जावे. मेरा पता 86, निमानगर, पोस्ट राजेश नगर इंदौर मध्यप्रदेश रहेगा अतः अब से मुझे मेरे इसी नये नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

पुराना नाम  
**(राजेश लखवानी)**  
 पिता स्व. श्री गंगाराम लखवानी  
 माता स्व. भगवती लखवानी

नया नाम  
**(राजेश हिंदुलानी)**  
 पिता स्व. श्री फतेहचंद हिंदुलानी  
 माता स्व. लाजवंती हुन्दलानी.

(G-625)

### CHANGE OF NAME

Hereby declare that, my correct name is Shivam Gurjar, but in my Marksheets my name is written Shivam Randwa I, have changed my name as Shivam Gurjar So from now and in future I will be known as Shivam Gurjar.

Old Name  
**(SHIVAM RANDWA)**

New Name  
**(SHIVAM GURJAR)**  
 Saket Nagar, Gali No. 1,  
 Mangrol Road, Khargone (M.P.).

(G-626)

### CHANGE OF NAME

That is to inform all that before marriage my name was NIKITA PARDASANI Daughter of ISHWAR PARDASANI and after marriage solemnized my name VEDIKA BALWANI wife of MOHIT BALWANI. I should be known by new name VEDIKA BALWANI Wife of MOHIT BALWANI.

|  |  |
|--|--|
| Old Name<br><b>(NIKITA PARDASANI)</b><br>D/o Ishwar Pardasani<br><br>(G-627) | New Name<br><b>(VEDIKA BALWANI)</b><br>Wife of Mohit Balwani<br>Add-House No. 42, Old Sindhi Colony,<br>Berasia Road, Bhopal (M.P.). |
|--|--|

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म ई हेरेक्स कन्सलटेन्सी सर्विसेस, जिसका कार्यालय पता—फर्स्ट फलोर, रचना ट्रेड सेन्टर, चूना भट्टी, भोपाल, म.प्र. में स्थित है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01-01-01-00488-11, सन् 2010-11, दिनांक 14-02-2011 में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश में पंजीयन है, दिनांक 31-03-2017 को फर्म के सभी भागीदार अपनी इच्छा से भागीदारी फर्म को भंग कर रहे हैं।

For, EHEREX Consultancy Services  
अपूर्व मालवीय  
(भागीदार)

(G-628)

### PUBLIC NOTICE

#### NOTIFICATION U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is to notify that new partner Shri Narendra Mangwani S/o Late Shri Prataprai Mangwani has been admitted in the Partnership Firm Divya Nirman, Indore (M.P.) w.e.f. 01-07-2022.

The constitution of the firm stands altered accordingly.

For-Divya Nirman,  
(Jitendra Dave)  
(Partner)

(G-629)

### PUBLIC NOTICE

This is to inform to general public that the partnership firm M/s. DURGAMATA MARBLE having its registered office at LIG 88, Nagar Sudhar Nyas Colony, Jhinjhari, Katni, M.P. 483501 PAN: AAFFD1411P AND ITS FIRM REGISTRATION — 04-15-03-00102-05, Date 17-10-05 WITH REGISTRAR OF FIRMS WITH ITS ORIGINAL DEED Date 04-10-2005 and its amendment Date 17-11-2006,

06-11-2012, 30-11-2012, 16-08-2016 and 01-01-2023 is having partners namely -Shri Kedar Sharma, Shri Natwar Lal Goyal, Shri Krishna Murari Agrawal, Shri Shyam Singh, Shri Ritesh Jakhodia and Shri Aashutosh Jakhodia.

That *vide* amended partnership deed Date 02-01-2023 four partners namely Shri Kedar Sharma, Shri Natwar Lal Goyal, Shri Krishna Murari Agrawal and Shri Shyam Singh has retired from the firm and firm is continuing with its existing partners namely Shri Ritesh Jakhodia and Shri Aashutosh Jakhodia.

With effect from 02-01-2023, this is to inform to general public that the firm DURGA MATA MARBLE is being operated run and continued by Shri Ritesh Jakhodia and Shri Aashutosh Jakhodia and are authorized to deal with various statutory authorities for registration and contract purpose.

Further the registered office is hereby being shifted to new address as- WARD NO 13, HOUSE NO. 33, SAI MANGLAM COLONY, SIHORA, JABALPUR M.P.

For-DURGA MATA MARBLE,

**1. Ritesh Jakhodia  
2. Aashutosh Jakhodia**

(Partner)

(G-630)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म GREEN BERRY LEISURE पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0139-19 सन् 2019-2020, दिनांक 04-07-2019 पंजीकृत फर्म है। यह कि भागीदारी अभिलेख 01-04-2021 को श्रीमती पुष्पा जोशी पत्नी श्री विष्णु गोविन्द जोशी, निवासी विदिशा इस फर्म से पृथक् (अलग) हो गई हैं तथा नये भागीदार के रूप में श्री मनीष कुमार जोशी, निवासी-भोपाल को आपसी सहमति से शामिल किया गया है।

GREEN BERRY LEISURE,  
सोना जोशी  
(भागीदार)

(G-631)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमती शीलम कोरी पत्नी श्री संजीत कुमार कोरी, आयु वयस्क, निवासी मकान नं.-10, नवबहार कॉलोनी, भाग-1, रेल्वे स्टेशन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) का विवाह संजीत कुमार कोरी पुत्र श्री रामगोपाल कोरी के साथ परिवार की सहमति से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ है। जिनका विवाह के पूर्व का नाम श्याम कली कुमारी पुत्री श्री रामकिशोर कोरी, निवासी-ग्राम दावतपुर, तहसील वल्लीपुर, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.) था तथा विवाह के उपरांत श्रीमती शीलम कोरी पत्नी श्री संजीत कुमार कोरी, आयु वयस्क, निवासी मकान नंबर-10, नवबहार कॉलोनी, भाग-1, रेल्वे स्टेशन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) हो गया है तथा इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

पुराना नाम  
(श्याम कली कुमारी)

(G-632)

नया नाम  
(शीलम कोरी)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम आशिया बी खान को परिवर्तित कर मेरा नया नाम आशिया अहिरवार करना चाहती हूँ मेरा पूर्व नाम आशिया बी खान पिता स्व. श्री राजे खान था. मैं, अपना नाम समस्त दस्तावेजों में पूर्व नाम आशिया बी खान को परिवर्तन कर नया नाम श्रीमती आशिया अहिरवार पति श्री दिनेश अहिरवार किया जावे. मैंने अपना नाम आशिया बी खान से आशिया अहिरवार कर लिया है. अतः, अब मुझे आशिया अहिरवार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| पुराना नाम<br>(आशिया बी खान) | नया नाम<br>(आशिया अहिरवार) |
|------------------------------|----------------------------|

(G-633)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कमला सजवान (Kamla Sajwan) पत्नी श्री आई.एस. सजवान आयु—वयस्क, निवासी—36 /ए, शकुन्तला नगर, राजदैद्य कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) आधार नं. 7718 8568 2591 मेरे मकान एल.आई.जी. 41, ब्लॉक नम्बर—4, सरिता कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) की रजिस्ट्री में मेरा नाम श्रीमती कमला सजवान (Kamla Sajwan) पत्नी श्री आई.एस. सजवान अंकित है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कलावती सजवान (Kalawati Sajwan) पत्नी श्री आई.एस. सजवान है मैं इसी नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ मेरा यही नाम प्रचलन में है, इस विज्ञप्ति उपरांत मुझे अपने सही नाम श्रीमती कमला सजवान (Kamla Sajwan) पत्नी श्री आई.एस. सजवान के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए.

|   |  |
|---|--|
| पुराना नाम<br>(कलावती सजवान)<br>(Kalawati Sajwan) | नया नाम<br>(कमला सजवान)<br>(Kamla Sajwan)<br>पत्नी श्री आई.एस. सजवान |
|---|--|

(G-634)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम सिमरन कौर सलुजा था, जो मेरे कोटेक महेन्द्रा के शेयर प्रमाण—पत्र में लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम नवनीत छाबडा पति गुणवीर सिंह छाबडा है जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे नवनीत छाबडा पति गुणवीर सिंह छाबडा के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| पुराना नाम<br>(सिमरन कौर सलुजा) | नया नाम<br>(नवनीत छाबडा)<br>पति श्री गुणवीर सिंह छाबडा<br>पता—70, पलसीकर कॉलोनी,<br>इंदौर (म.प्र.). |
|---------------------------------|---|

(G-635)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम जीनी भानेज पिता श्री रमणीक भानेज था जो मेरी हाईस्कूल की अंकसूची एवं मेरी बैंक पासबुक पर भी दर्ज है, श्री विशाल मेहता से विवाह के उपरान्त अब मेरा नाम सोनाली मेहता पति श्री विशाल मेहता हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे सोनाली मेहता पति श्री विशाल मेहता के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम  
(जीनी भानेज)

(G-636)

नया नाम  
(सोनाली मेहता)  
पति—श्री विशाल मेहता  
पता—२१, रामद्वारा मार्ग, छत्रीबाग,  
इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम हरमेन्द्र राजपाल था, जो मेरे आरती इन्डस्ट्री के शेयर प्रमाण—पत्र पर लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम गुणवीर सिंह छाबडा पिता करतार सिंह छाबडा है जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे गुणवीर सिंह छाबडा पिता करतार सिंह छाबडा के नाम से जाना—पहचाना व संबोधित किया जावे।

पुराना नाम  
(हरमेन्द्र राजपाल)

(G-637)

नया नाम  
(गुणवीर सिंह छाबडा)  
पिता—श्री करतार सिंह छाबडा  
पता—७०, पलसीकर कॉलोनी,  
इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम रजनी जैन था, जो कि मेरे कॉन्सर्ट (सेंट्रम) कैपिटल लिमिटेड एवं डायनाविजन लिमिटेड के हस्तान्तरित शेयर प्रमाण—पत्र पर लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम निर्मला धारीवाल पति श्री सुभाष धारीवाल है जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे निर्मला धारीवाल पति श्री सुभाष धारीवाल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम  
(रजनी जैन)

(G-638)

नया नाम  
(निर्मला धारीवाल)  
पति—श्री सुभाष धारीवाल  
पता—१६ / १, नवकार अपार्टमेन्ट,  
साउथ तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जितेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री राजमणि सिंह गुर्जर निवासी—दीनदयाल नगर गेट के सामने, एहमाना मार्केट, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) इस प्रकाशन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं नाबालिक था तब मेरे परिवार के द्वारा एक विक्रिय पत्र दिनांक 09—11—1990 को विक्रेता राधाकृष्ण पुत्र नंदलाल निवासी—श्री राम कॉलोनी, झांसी रोड, ग्वालियर से मेरे एवं भाई के नाम से कराई थी जिसमें मेरे नाबालिक होने के कारण सरपरस्ती मेरी दादी श्रीमती शोभादेवी पत्नी श्री हरि सिंह को दी गई थी उक्त विक्रिय पत्र में मेरे उस वक्त का बोलता नाम विक्रांत सिंह पुत्र श्री राजमणि सिंह कर दिया गया था जबकि मेरे शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र राज मणि सिंह गुर्जर है अतः दोनों नाम मेरे ही हैं।

पुराना नाम  
(विक्रांत सिंह)  
(G-639)

नया नाम  
(जितेन्द्र सिंह गुर्जर)  
पुत्र श्री राजमणि गुर्जर  
निवासी—दीनदयाल नगर गेट के सामने,  
एहमाना मार्केट के सामने भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मॉ शीतला ग्रेनाइट्स जो रफाडपुरा, तहसील डबरा, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02—42—02—0085—20 दिनांक 31—07—2020 है, जिसमें दिनांक 01—04—2022 को भागीदार श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री प्रताप सिंह गुर्जर, निवासी—वार्ड नं. 10, रफाडपुरा, तहसील डबरा, ग्वालियर (म.प्र.) एवं भागीदार श्री कृष्ण कुमार मित्तल पुत्र श्री शिवचरण मित्तल, निवासी—वार्ड नं. 4, पिपरौन, धौलपुर, राजस्थान अपनी स्वेच्छा एवं सभी भागीदारों की सहमति से फर्म से पृथक् हो रहे हैं।

(G-640)

मैसर्स मॉ शीतला ग्रेनाइट्स  
माधव मित्तल  
(भागीदार)  
रफाडपुरा, तहसील, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स हरिकिशन एण्ड संस जो जिला अस्पताल के सामने, लश्कर रोड, भिण्ड (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02—43—07—00093—08 दिनांक 22—08—2008 है, जिसमें दिनांक 03—08—2021 को भागीदार श्री हरिकिशन अग्रवाल पुत्र श्री चादमीलाल अग्रवाल, निवासी—मेहरोत्रा गली, हनुमान बजरिया, किला रोड, भिण्ड (म.प्र.) की मृत्यु हो जाने के कारण सभी भागीदारों की सहमति से फर्म से पृथक् किया जाता है एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरिकिशन अग्रवाल, निवासी—मेहरोत्रा गली, हनुमान बजरिया, किला रोड, भिण्ड (म.प्र.) एवं श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरिकिशन अग्रवाल, निवासी—मेहरोत्रा गली, हनुमान बजरिया, किला रोड, भिण्ड (म.प्र.) को सभी भागीदारों की सहमति से सम्मिलित किया जाता है एवं इसी दिनांक से भागीदारी फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय को जिला अस्पताल के सामने, लश्कर रोड, भिण्ड (म.प्र.) से परिवर्तित कर नवीन पता सर्वे नंबर 178, 179 गांव बरोही, जिला भिण्ड किया जाता है।

(G-641)

मैसर्स हरिकिशन एण्ड संस  
राधा मोहन अग्रवाल  
(भागीदार)  
सर्वे नं. 178, 179, गांव बरोही, जिला भिण्ड (म.प्र.).

## न्यायालयों की अधिसूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर,  
जिला शुजालपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0006—बी—113—2022—23

शुजालपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2023

### प्रारूप—पांच (देखिये नियम 5(1))

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एकट, 1951 की धारा 5(1) व 5(2) के अंतर्गत आवेदक अध्यक्ष श्री गुरुद्वारा गुरसिंह सभा शुजालपुर मण्डी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा—2 की उपधारा—4 से अभिप्राय के लिये श्री गुरुद्वारा गुरसिंघ सभा शुजालपुर मण्डी ट्रस्ट तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर गुरुद्वारा गुरसिंघ सभा ट्रस्ट के द्वारा सेवा प्रदान करना लोक न्यास धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट शुजालपुर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त ट्रस्ट की चल—अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिस पर दिनांक 16/05/2023 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधि अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

1— न्यास का मुख्यालय— गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला शुजालपुर मण्डी

जिला शाजापुर म0प्र0

2— न्यास का कार्यक्षेत्र— शुजालपुर

3— न्यास का उद्देश्य— पूजा, अर्चना धर्मापदेश एवं सिक्ख एवं पंजाबी धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं समय—समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन, गुरुद्वारा जीर्णद्वार एवं संसोधन, सप्रबंधन करना आदि कार्य।

4— न्यास आय के साधन— न्यास का पंजीयन होने के बाद दान दाताओं से आय का साधन होगा।

चल—अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :—

अचल संपत्ति— निरंक

चल संपत्ति

बैंक ऑफ इंडिया शुजालपुर मण्डी में राशि 47,941,72 रुपये जामा है।

पेशी दिनांक 13/04/2023

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्सी क्षेत्र, इन्दौर, मध्यप्रदेश

(फार्म-चार)

इलुमिनाती राउंड टेबल ट्रस्ट इन्दौर पता 20, सम्पत विहार कॉलोनी भिचौली मर्दाना इन्दौर तर्फ चार्टेड अकाउंडटेंट श्री सत्यनारायण गोयल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक ट्रस्ट चार्टेड अकाउंडटेंट श्री सत्यनारायण गोयल द्वारा " इलुमिनाती राउंड टेबल ट्रस्ट इन्दौर पता 20, सम्पत विहार कॉलोनी भिचौली मर्दाना इन्दौर का पब्लिक एकट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल व अचल संपत्ति का विवरण)

|                  |  |
|------------------|--|
| ट्रस्ट का नाम :- | इलुमिनाती राउंड टेबल ट्रस्ट              |
| पता :-           | सम्पत विहार कॉलोनी भिचौली मर्दाना इन्दौर |
| चल संपत्ति :-    | न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 11,000/- है।  |
| अचल संपत्ति :-   | निरंक                                    |

आज दिनांक ०४/२०२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

प्रिया आशीष पटेल, पंजीयक

(G-643)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ऑफ ट्रस्ट तराना, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. रजि.प.ट्रस्ट—2023—554

तराना, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[म.प्र. जन न्यास अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5 (2) के अंतर्गत]

आवेदक भंवरलाल जैन एवं अन्य कर्त्त्वा तराना द्वारा आवेदन पत्र म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत कर श्री वीरमणी पाश्वर्नाथ जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ ट्रस्ट तराना को म.प्र. लोक न्यास मे पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त न्यास से संबंधित कोई व्यक्ति जो न्यास अथवा अनुसूचित मे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति मे हित या रुची रखता हो तो आपत्ति अथवा सुझाव इस न्यायालय मे विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर अथवा प्रकरण मे नियत दिनांक 15—05—2023 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक या मुख्यार आम के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम     | — | श्री वीरमणी पाश्वर्नाथ जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ ट्रस्ट तराना |
| 2. वर्तमान पता       | — | जवाहर चौक, तराना, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.                |
| 3. सम्पत्ति का विवरण | — | ट्रस्ट न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है—         |

**1. चल सम्पत्ति—**

1. भगवान की अंगी नग 5 चांदी
2. सपनाजी नग 14 चांदी
3. छत्र नग 7 चांदी
4. सोने की चेन नग 1 सोने की 1 ग्राम
5. नगर मंदिर की पूंजी 51250.00 इक्कावन हजार दौ सौ पचास

**2. अचल सम्पत्ति—**

1. सुभाष मार्ग तराना स्थित बाडे सहित मकान सर्वे नंबर 31/1, 31/2, 31/3 स्थित है।

राजेश वोरासी, रजिस्ट्रार

(G-644)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर,  
जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 02-बी-113(4)-23-24

-:नियम थार:-

(नियम ५ (१) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ की ३०) की धारा ५ की उपधारा (२) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, १९६२ का नियम ५ (१) देखिये

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

श्री झुलेलाल मंदिर समिति दलौदा चौपाटी

चूंकि श्री झुलेलाल मंदिर समिति दलौदा चौपाटी द्वारा अध्यक्ष दिलीप पिता प्रेमचंद चंदवानी एवं सचिव हेमंत पिता प्रेमचंद चंदवानी निवासी दलौदा चौपाटी जिला मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ३०) धारा -४ के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक १/२०२३ को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः शिवलाल शाक्य पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक १२/५/२०२३ को उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

**संपत्ति का विवरण**

(अ) भूमि संपत्ति

- सर्वे क्रमांक 215/1 रकबा 0.063 सर्वे क्रमांक 218/3 रकबा 0.168 आरी

(ब) घर संपत्ति

- निरंक

(G-645)

प्र.क्र. ०३-बी-११३(४)-२३-२४

-नियम घार:-

(नियम ५ (१) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ की ३०) की धारा ५ की उपधारा (२) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, १९६२ का नियम ५ (१) देखिये

### पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

संजीवनी मानव सेवा संस्थाना सीतामउ रोड, सीतामउ फाटक, मंदसौर तहसील मंदसौर चूकि संजीवनी मानव सेवा संस्थाना सीतामउ रोड, सीतामउ फाटक, मंदसौर तहसील मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा अध्यक्ष लालबहादुर जैन पिता केशरीमल जैन निवासी अफजलपुर तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ३०) धारा -४ के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक २२/५/२०२३ को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो आंर उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः शिवलाल शाक्य पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक २२/५/२०२३ को उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियो में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अधिसमाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियो का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

### संपत्ति का विवरण

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| (अ) अचल संपत्ति | - निरंक |
| (ब) चल संपत्ति  | - निरंक |

शिवलाल शाक्य, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

(G-646)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र. 01—ब—113(1)—2023—24

प्रारूप क्र. 04  
(देखे नियम 5(1))

सूचना पत्र

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)  
लोक न्यासों के पंजीयक दमोह जिला दमोह के समक्ष

यतः अध्यक्ष श्री रामदरबार मंदिर समिति विजय नगर दमोह के द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 24.05.2023 को 02:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझौता को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची—

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)  
श्री रामदरबार मंदिर समिति, विजयनगर दमोह

मौजा हिरदेपुर, तहसील व जिला दमोह खसरा  
नंबर 351/1 ख, 351/2 ख, 351/1 ख/4  
एवं 351/2 ख/4 में से 1960 वर्गफुट पर  
निर्मित मंदिर एवं अन्य तथा 86190/-रु० बैंक  
में जमा।

(G-647)

गगन बिसेन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश  
क्र. 661—रीडर—1—22

जुनी, इंदौर, दिनांक 21 अप्रैल 2023

विज्ञाप्ति ( फार्म चार )

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

आवेदक ज्ञानशीला सेवार्थ ट्रस्ट पता—ज्ञान पार्क, 10, टेलीफोन नगर, इन्दौर की ओर से  
आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिषिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में रखयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निष्प्रित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिषिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — अचल संपत्ति का विवरण)

आवेदक ज्ञानशीला सेवार्थ ट्रस्ट पता—ज्ञान पार्क, 10, टेलीफोन नगर, इन्दौर  
अचल संपत्ति :- निरंक ।  
चल संपत्ति :- 01,01,000/-।

आज दिनांक 21 /०५ /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय को मुद्रा से प्रसारित किया गया । /

(G-648)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार

## कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023

नर्मदापुरम, दिनांक 10 अप्रैल 2023

**मेरुदंगल:** सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत) उप नियम सहकारी संस्थाएं नर्मदापुरम के द्वारा म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत निम्नांकित संघीयताओं को परिसमापन में लायः जाकर धारा-69(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

| क्र. | जन्मसंदर्भ का नाम                             | पंजीयन क्रमांक व दिनांक |             | परिसमापक नियुक्त किये जाने का |            |
|------|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
|      |   | पंजीयन क्रमांक          | दिनांक      | आदेश क्र.                     | दिनांक     |
| 1    | आगम चेतन गृह निर्माण सहकारी समिति सिवनी मालवा | 2432                    | 15.6.1994   | 92                            | 14.01.2020 |
| 2    | सकेत गृह निर्माण सहकारी समिति होशंगाबाद       | 2072                    | 13.01. 1975 | 691                           | 8.4.2021   |
| 3    | मानस बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति इटारसी     | 2431                    | 15.4.1994   | 691                           | 8.4.2021   |
| 4    | शक्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति होशंगाबाद  | 2817                    | 18.8.2004   | 691                           | 8.4.2021   |
| 5    | दुर्घ उत्पादक सह.समिति मर्या.पिलाडियाकला      | 2808                    | 13.1.2004   | 691                           | 8.4.2021   |
| 6    | तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या. कनवार          | 2556                    | 10.9.1987   | 691                           | 8.4.2021   |
| 7    | तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या. बहाटपुर        | 2210                    | 26.9.2018   | 1152                          | 2.9.2020   |
| 8    | महिला जरी कढाई सह समिति मर्या.होशंगाबाद       | 2716                    | 8.8.2020    | 1152                          | 2.9.2020   |

अतः म.प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर में लिखित प्रमाण पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करे। त्रुटी की दशा में सदस्य गण / साहूकार गण किसी भी लाभ के बटवारे से वर्चित होने वें दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा अपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया तो वाद में उसका दावा कलेक्ट मान्य नहीं किया जायेगा। संस्था के लेखा पुस्तकार्थ में लेखा संबंधित समस्त दायिकत्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे। उक्त सूचना के पश्चात यदि पदाधिकारियों ने सम्पर्क नहीं किया तो पंजीयन निरस्ती हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी। तथा दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 11.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई

बी. के शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-649)

## कारण बताओ सूचनापत्र

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत)**

प्रति,

प्रशासक / प्रबंधक,  
हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या.,  
नारायणपुरा.

\*\*\*

सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला सागर के पत्र क्र./174/स.सं.म./तक/2022-23 सागर दिनांक 23.02.2023 एवं संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2021-22 के अनुसार हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर पंजीयन क्र. 436 दिनांक 23.03.1987 के संबंध में मत्स्य विभाग के –

1. सहायक संचालक, मत्स्योद्योग जिला सागर द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन अनुसार समिति द्वारा मछली पालन का कार्य सुचारू एवं नियमानुसार नहीं किया जा रहा है एवं उनके द्वारा उक्त पत्र द्वारा संस्था को परिसमाप्त में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।
2. संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2021-22 के अनुसार संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु समस्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान सदस्यता पंजी प्रस्तुत नहीं की गई है। अंकेक्षण आपत्ति अनुसार रोकड़ एवं प्रमाणक ही प्रस्तुत किये गये हैं। आमसभा पंजी एवं संचालक मण्डल की बैठक की पंजी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो नियमानुसार नहीं है। संस्था द्वारा अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि सोसायटी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया गया है।

अतः म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी. भोपाल दिनांक 26.07.1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां म.प्र. भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर को प्रदत्त म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमाप्त करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचनापत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमाप्त का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचनापत्र आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशाराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

**विज्ञापन**  
**अन्य सूचनाएं**  
**सरनेम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमाशंकर चमार पिता रामसिया चमार, निवासी—वार्ड क्रमांक 04, मन्टोलवा, बिरसिहपुर, जिला सतना (म.प्र.) का मूल निवासी हूँ, मैंने अपना सरनेम परिवर्तन करके रमाशंकर चमार के स्थान पर रमाशंकर सागर रख लिया है। अतः, अब मुझे रमाशंकर सागर के नाम से जाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में इसी नाम का उल्लेख किया जाये।

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| पुराना नाम<br>(रमाशंकर चमार) | नया नाम<br>(रमाशंकर सागर) |
|------------------------------|---------------------------|

(G-651)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अनीता अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल है। मैं, गोसपुरा नं. 2, हजीरा गिर्द, ग्वालियर में रहती हूँ, मेरे उपनाम में आधार कार्ड में अग्रवाल के स्थान पर गुप्ता गलत अंकित हो गया है। जबकि मैं अपने परिवार तथा समाज में अनीता अग्रवाल के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, अतः भविष्य में मुझे अनीता गुप्ता की जगह अनीता अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| पुराना नाम<br>(अनीता गुप्ता) | नया नाम<br>(अनीता अग्रवाल) |
|------------------------------|----------------------------|

पत्नी श्री मुकेश गुप्ता

निवासी—गोसपुरा नं. 2, हजीरा गिर्द, ग्वालियर.

(G-652)

**जाहिर सूचना**

भागीदारी फर्म अधिनियम 1932 की धारा 72 के अंतर्गत नोटिस

1. यह कि मेसर्स श्री वी.जे. त्रिवेदी बालाघाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 04-21-01-00056-05, दिनांक 22-07-2005 है। जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।
2. दिनांक 08-02-2023 को अनीष त्रिवेदी आत्मज स्व. श्री प्रफुलचंद्र त्रिवेदी का निधन हो गया है। दिनांक 10-02-2023 की भागीदारी फर्म की डीड के अनुसार भागीदारी फर्म से अलग हो गए हैं।
3. दिनांक 10-02-2023 की भागीदारी डीड के अनुसार श्री हार्दिक संजय त्रिवेदी पिता श्री संजय त्रिवेदी, भागीदारी फर्म में शामिल हो गए हैं।
4. दिनांक 10-02-2023 की भागीदारी डीड के अनुसार श्रीमती पूनम संजय त्रिवेदी पति श्री हार्दिक संजय त्रिवेदी, भागीदारी फर्म में शामिल हो गए हैं।

मेसर्स वी. जे. त्रिवेदी, बालाघाट  
**हार्दिक संजय त्रिवेदी**  
(bागीदार)

(G-653)

**जाहिर सूचना**

भागीदारी फर्म अधिनियम 1932 की धारा 72 के अंतर्गत नोटिस

1. यह कि मेसर्स त्रिवेणी राईस इंडस्ट्रीज वारासिवनी, बालाघाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 04-21-05-00302-13, दिनांक 08-01-2013 है। जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।
2. दिनांक 02-02-2023 की भागीदारी डीड के अनुसार श्री गोविंदा खंडेलवाल आत्मज श्री विजय खंडेलवाल, भागीदारी फर्म में शामिल हो गए हैं।

मेसर्स त्रिवेणी राईस इंडस्ट्रीज  
**विजय खंडेलवाल**  
(bागीदार)  
वारासिवनी, बालाघाट.

(G-654)

### आम सूचना

भागीदारी फर्म अधिनियम 1932 की धारा 72 के अंतर्गत नोटिस

1. यह कि मेसर्स प्रदयुमन कुमार जे. त्रिवेदी, फर्म बालाघाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 11– 08– 1989 है. जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।
2. दिनांक 08–02–2023 को अनीष त्रिवेदी आत्मज स्व. श्री प्रफुलचंद्र त्रिवेदी का निधन हो गया है. दिनांक 10–02–2023 की भागीदारी फर्म की डीड के अनुसार भागीदारी फर्म से अलग हो गए हैं।
3. दिनांक 10–02–2023 की भागीदारी डीड के अनुसार श्री कार्तिक पी. त्रिवेदी आत्मज श्री प्रदयुमन कुमार त्रिवेदी, भागीदारी फर्म में शामिल हो गए हैं।

मेसर्स प्रदयुमन कुमार जे. त्रिवेदी, बालाघाट  
प्रदयुमन कुमार जे. त्रिवेदी  
(भागीदार).

(G-655)

### आम सूचना

भागीदारी फर्म अधिनियम 1932 की धारा 72 के अंतर्गत नोटिस

1. यह कि मेसर्स जे. के. मिनरल्स फर्म, बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 04–21–01–0076–15, दिनांक 26–06–2015 है. जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।
2. दिनांक 08–02–2023 को अनीष त्रिवेदी आत्मज स्व. श्री प्रफुलचंद्र त्रिवेदी का निधन हो गया है. दिनांक 10–02–2023 की भागीदारी फर्म की डीड के अनुसार भागीदारी फर्म से अलग हो गए हैं।
3. दिनांक 10–02–2023 की भागीदारी डीड के अनुसार श्री कार्तिक पी. त्रिवेदी आत्मज श्री प्रदयुमन कुमार त्रिवेदी भागीदारी फर्म में शामिल हो गए हैं।

मेसर्स जे. के. मिनरल्स  
प्रदयुमन कुमार त्रिवेदी  
(भागीदार)  
बालाघाट.

(G-656)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. SWAMI KRIPA INFRA DEVLOPERS जो 129, बड़ा लुहारपुरा, पुरानी शिवपुरी (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयक क्रमांक 02–41–01–00159–14, दिनांक 26–9–2014 है जिसमें दिनांक 1–4–2023 से साझेदार श्रीमती राजाबाला श्रीवास्तव फर्म से पृथक् हो गई हैं. जिस कारण वर्तमान में फर्म में साझेदारों की संख्या 02 हो गई हैं जिससे सभी आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

M/s. SWAMI KRIPA INFRA DEVLOPERS  
सुरेन्द्र श्रीवास्तव  
(भागीदार)  
129, बड़ा लुहारपुरा, पुरानी  
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-657)

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023—वैशाख 15, शक 1945

---

### भाग 3 ( 2 )

---

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )